SECURITIES & CREDITS LIMITED

Registered Office: D-16, GROUND FLOOR, UDYOG NAGAR, NANGLOI, DELHI - 110041

CIN: L74899DL1993PLCO56702 Website: www.supersecurities.in

Contact No. : +91-9899425575 Email Id : supersecurities1993@gmail.com

info_hindsecurities@yahoo.in

March 19, 2021

BSE Limited,
The Stock Exchange,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai-400001

Scrip Code: 539114

Subject: <u>Submission of Post Delisting Compliance in compliance with SEBI (Delisting of Equity Shares)</u>
Regulations, 2009 ("Delisting Regulation")

Ref: Delisting Offer made to the shareholders of Hind Securities and Credits Limited

Dear Sir/Madam,

This is with reference to captioned subject and in continuation of your notice bearing no. no. 20210301-19 dated March 01, 2021.

In terms of undertaking submitted under the final application made to the BSE Limited by the Hind Securities and Credits Limited ('the Company'), this is to inform you that:

- 1. The Company has published the information about the delisting of its securities from all the Exchanges in the following newspapers on March 17, 2021 (copy of the clipping are enclosed for your reference):
 - a) Business Standard (National English Language Daily Newspaper)
 - b) Business Standard (Hindi Language Daily Newspaper)
 - c) Mumbai Lakhsdeep (Marathi Language Daily Newspaper)
- 2. The Company also submitting the procedure to be followed for tendering the shares of the company upon delisting the shares from the Exchanges.

Kindly take the same on your records.

Thanking You,

For Hind Securities and Credits Limited

(Pakul Chadha)

Company Secretary

Company Secretary

Encl.: As Above

PUBLIC ANNOUNCEMENT OF FINAL EXIT OFFER TO THE EQUITY SHAREHOLDERS OF HIND SECURITIES AND CREDITS LIMITED

Registered Office: D-16, Ground Floor, Udyog Nagar, Nangloi, Delhi-110041

CIN: L74899DL1993PLC056702

Contact No. +91-9899425575, E-mail: supersecurities1993@gmail.com

Website: www.supersecurities.in

THE EQUITY SHARES OF THE COMPANY HAVE ALREADY BEEN DELISTED FROM ALL THE STOCK EXCHANGES AND HENCE ARE NO LONGER TRADED. THIS OFFER IS TO PROVIDE YOU WITH A FINAL OPPORTUNITY TO EXIT.

AS A SHAREHOLDER OF THE COMPANY PLEASE NOTE THAT DUE TO DELISTING YOU SHALL NO LONGER BE ABLE TO SELL THE SHARES OF THE COMPANY OVER THE STOCK EXCHANGES AND THEREFORE IT WOULD BE DIFFICULT TO DISPOSE OFF YOUR SHARES.

All the remaining Public Shareholders of Hind Securities and Credits Limited ("the Company") are hereby informed that subsequent to the successful completion of delisting offer, which were concluded in accordance with Chapter VII and other applicable provisions of the Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009 ("the Regulations"), and subsequent amendments thereto, wherein the exit offer was made by the Promoter/Acquirer Mr. Parveen Gupta and Mr. Parteek Gupta at the exit price of Rs 13.00 (Rupees Thirteen Only) to the public shareholders of Hind Securities and Credits Limited.

The BSE Limited vide its notice bearing reference no. 20210301-19 dated 1st March, 2021 have delisted the Company from the exchange with effect from 16th March, 2021.

As per SEBI (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009 and subsequent amendments thereof, the BSE Limited has stipulated that the acquirer shall provide an exit option to the remaining public shareholders of the Company. The Public Shareholders of the Company who did not or were unable to participate in the delisting offer or who unsuccessfully tendered their shares in the aforementioned processes, now have a last and final opportunity to sell their shares to the promoter/acquirer at the exit price of Rs 13.00 (Rupees Thirteen Only) per share commencing from 17th March, 2021 to 16th March, 2022 i.e. for a period of One Year in Compliance with relevant provisions of SEBI (Delisting of equity shares) Regulations, 2009 and subsequent amendments thereto.

The Form of Acceptance alongwith relevant enclosures inviting public shareholders to tender their shares at the exit price to the "Acquirer" is being shortly dispatched to all the remaining public shareholders, who did not or were unable to participate in the delisting process or who unsuccessfully tendered their shares in the aforementioned processes.

Subject to any Regulatory Approvals as may be required, the Acquirer intends to dispatch payment to the shareholders who will validly tender their shares to the Acquirers with all the necessary documentation within 15 days of such receipt.

TENDERING PROCESS FOR REMAINING EQUITY SHARES

 Shareholders holding their equity shares in physical form: Equity Shareholders who hold equity shares in physical form and wish to tender their shares will be required to send the Form of Acceptance Cum Acknowledgement duly filled in, Original Physical Share Certificate accompanied with Blank Transfer Deed duly signed along with relevant authorizations, if applicable, to the Company at its registered office situated at D-16, Ground Floor, Udyog Nagar, Nangloi, Delhi-110041.



2. Shareholders holding their equity shares in Demat Form: Beneficial Owners and shareholders holding equity shares in dematerialized form, will be required to send their duly filled in Form of Acceptance Cum Acknowledgement along with relevant authorizations, if applicable, alongwith photo copy of delivery instructions in "Off-Market" mode or Counterfoil of the delivery instructions in "Off-Market" mode duly acknowledged by the Depository Participant ("DP") in favour of following account and send it to the acquirer, Mr. Parveen Gupta/ Mr. Parteek Gupta, C/o Hind Securities and Credits Limited having registered office at D-16, Ground Floor, Udyog Nagar, Nangloi, Delhi-110041:

Depository P	articipant Name	9	Parveen Gupta
Depository Number	Participant	Identification	19101
Client Identif	ication Number		1201910102271538
Depository N	ame		SMC Global Securities Limited - New Delhi
Depository A	ccount Name		Central Depository Services (India) Limited (CDSL)

For any query relating to the exit offer, please consult the Company. The shareholders are requested to tender or send their complete document(s) to the Company at the following address as per the mode of delivery mentioned herein from Monday to Friday between 10:00 A.M. to 5:00 P.M.

SI. No.	Address	Contact Person	Mode of delivery	Telephone Number	Fax No.
1.	D-16, Ground Floor, Udyog Nagar, Nangloi, Delhi- 110041	Parul Chadha (Company Secretary & Compliance Officer)	By Regd. Post/Speed Post/Courier/ Hand Delivery	+91- 9899425575	NA

For Hind Securities and Credits Limited

Parul Chadha

Company Secretary & Compliance Officer

Place: 16th March 2021

Date: Delhi

COMPANIES

PhonePe cements position; WhatsApp sees a further slide

hile Walmart-backed PhonePe is reinforcing its position as the top unified payments interface (UPI) application by processing the most UPI transactions in the past three consecutive months. WhatsApp — a new entrant into the UPI market — which was expected to be a big disruptor because of its huge userbase, has failed to process large amounts of transactions on its payment platform so far.

In February, WhatsApp processed 550,000 transactions amounting to ₹32.41 crore. The volume of transactions has gone down since December, when it processed 810,000 transactions amounting to ₹29.72 crore. Since its limited launch in November last year, WhatsApp has processed 2.23 million of the 9.04 billion transactions on the UPI platform. Reports had suggested it is a conscious effort on the part of WhatsApp to go slow because it wants to enhance customer experience before going for scale.

PhonePe processed 975.53 million transactions in February, amounting to ₹1.89 trillion. In January, it had processed 968.72 million transactions worth ₹1.91 trillion. Google Pay, on the other hand, has seen a fall in transaction value since November last year. From processing 960 million transactions in November, Google Pay's transaction volume has come down to 827.86 million



in February worth ₹1.74 trillion. Together, these two players control a little over 78 per cent of the UPI market in terms of the volume of transactions and 85 per cent in terms of the value of transactions in February.

UPI, the flagship payments platform of the National Payments Corporation of India, in February, recorded 2.29 billion transactions worth ₹4.25 trillion. Sequentially, the transactions dipped 0.42 per cent by volume and 1.39 per cent by value over January because of fewer days in February. However, year-onvear, the transactions were up 73 per cent by volume and more than 90 per cent by value.

Other large players in the ecosystem, such as Paytm Payments Bank, have shown impressive growth month-on-month. In February, Paytm processed 290 million transactions worth ₹34,405.44 crore. Amazon Pay, backed by global e-commerce giant Amazon, processed 44.22 million transactions worth

Available on Leave and Licence

3290 sq. ft. (carpet area - 2303 sq. ft.) **Recently and Fully Furnished Office** with New AC at Paragon Centre, Worli.

Office is centrally located at P. B. Marg, close to Doordarshan Tower, Opposite Birla Centurion and with easy connectivity with Bandra Worli Sea Link. Interested parties please write to kishor.shrigandhewar@bsmail.in or call Mr. Kishor Shrigandhewar on 9892981751 or Mr Satose on 9819018103.

Web: www.paragonproperties.in

PUBLIC ANNOUNCEMENT OF FINAL EXIT OFFER TO THE EQUITY SHAREHOLDERS OF HIND SECURITIES AND CREDITS LIMITED Registered Office: D-16, Ground Floor, Udyog Nagar, Nangloi, Delhi-110041 CIN: L74899DL1993PLC056702 Contact No. +91-9899425575, E-mail: supersecurities1993@gmail.com

THE EQUITY SHARES OF THE COMPANY HAVE ALREADY BEEN DELISTED FROM ALL THE STOCK EXCHANGES AND HENCE ARE NO LONGER TRADED. THIS OFFER

IS TO PROVIDE YOU WITH A FINAL OPPORTUNITY TO EXIT. AS A SHAREHOLDER OF THE COMPANY PLEASE NOTE THAT DUE TO DELISTING YOU SHALL NO LONGER BE ABLE TO SELL THE SHARES OF THE COMPANY OVER THE STOCK EXCHANGES AND THEREFORE IT WOULD BE DIFFICULT TO DISPOSE

All the remaining Public Shareholders of Hind Securities and Credits Limited ("the Company") are hereby informed that subsequent to the successful completion of delisting offer, which were concluded in accordance with Chapter VII and other applicable provisions of the Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009 ("the Regulations"), and subsequent amendments thereto, wherein the exit offer was made by the Promoter/Acquirer Mr. Parveen Gupta and Mr. Parteek Gupta at the exit price of Rs 13.00 (Rupees Thirteen Only) to the public shareholders of Hind Securities and Credits Limited

The BSE Limited vide its notice bearing reference no. 20210301-19 dated 1st March, 2021 have delisted the Company from the exchange with effect from 16th March, 2021.

As per SEBI (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009 and subsequent amendment thereof, the BSE Limited has stipulated that the acquirer shall provide an exit option to the remaining public shareholders of the Company. The Public Shareholders of the Company who did not or were unable to participate in the delisting offer or who unsuccessfully tendered their shares in the aforementioned processes, now have a last and final opportunity to sell their shares to the promoter/acquirer at the exit price of Rs 13.00 (Rupees Thirteen Only) per share commencing from 17th March, 2021 to 16th March, 2022 i.e. for a period of One Year in Compliance with relevant provisions of SEBI (Delisting of equity shares) Regulations, 2009 and subsequent amendments thereto.

The Form of Acceptance along with relevant enclosures inviting public shareholders to tende their shares at the exit price to the "Acquirer" is being shortly dispatched to all the remaining public shareholders, who did not or were unable to participate in the delisting process or who unsuccessfully tendered their shares in the aforementioned processes.

Subject to any Regulatory Approvals as may be required, the Acquirer intends to dispatch payment to the shareholders who will validly tender their shares to the Acquirers with all the ecessary documentation within 15 days of such receipt.

TENDERING PROCESS FOR REMAINING EQUITY SHARES

 Shareholders holding their equity shares in physical form: Equity Shareholders who
hold equity shares in physical form and wish to tender their shares will be required to send the Form of Acceptance Cum Acknowledgement duly filled in, Original Physical Share Certificate accompanied with Blank Transfer Deed duly signed along with relevant authorizations, if applicable, to the Company at its registered office situated at D-16, Ground Floor, Udyog Nagar, Nangloi, Delhi-110041.

Shareholders holding their equity shares in Demat Form: Beneficial Owners and shareholders holding equity shares in dematerialized form, will be required to send their duly filled in Form of Acceptance Cum Acknowledgement along with relevan authorizations, if applicable, alongwith photo copy of delivery instructions in "Off-Market mode or Counterfoil of the delivery instructions in "Off-Market" mode duly acknowledged by the Depository Participant ("DP") in favour of following account and send it to the acquirer, Mr. Parveen Gupta/ Mr. Parteek Gupta, C/o Hind Securities and Credits Limited having registered office at D-16, Ground Floor, Udyog Nagar, Nangloi, Delhi-110041:

Depository Participant Name	:	Parveen Gupta
Depository Participant	:	19101
Identification Number		
Client Identification Number	:	1201910102271538
Depository Name	:	SMC Global Securities Limited - New Delhi
Depository Account Name	:	Central Depository Services (India) Limited (CDSL)

For any query relating to the exit offer, please consult the Company. The shareholders are requested to tender or send their complete document(s) to the Company at the following address as per the mode of delivery mentioned herein from Monday to Friday between 10:00

SI. Address No.		Contact Person			Fax No.			
1	D-16, Ground Floor, Udyog Nagar, Nangloi, Delhi-110041	Parul Chadha (Company Secretary & Compliance Officer)	By Regd. Post/ Speed Post/Courier/ Hand Delivery	+91- 9899425575	N/A			

Place: 16th March 2021

Date: Delhi

For Hind Securities and Credits Limited Company Secretary & Compliance Officer THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES NOR IS IT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT.



SURYODAY SMALL FINANCE BANK LIM

Suryoday Small Finance Bank Limited (the "Bank") was originally incorporated as Suryoday Micro Finance Private Limited at Chennai, Tamil Nadu, as a private limited company under the Companies Act, 1956 pursuant to the certificate of incorporation dated November 10, 2008 issued by the Assistant Registrar of Companies, Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands at Chennai. Subsequently, the Bank was converted into a public limited company and the name of the Bank was changed to Suryoday Micro Finance Limited, and a fresh certificate of incorporation dated June 16, 2015 was issued by the RoC. The Bank was granted the in-principle and final approval to establish a small finance bank ("SFB") by the RBI, pursuant to its letters dated October 7 2015 and August 26, 2016, respectively. Pursuant to the Bank being established as an SFB, the name of the Bank was changed to Suryoday Small Finance Bank Limited and a fresh certificate of incorporation was issued by the RoC on January 13, 2017 The Bank commenced its business with effect from January 23, 2017 and was included in the second schedule to the RBI Act pursuant to a notification dated July 24, 2017 issued by the RBI and published in the Gazette of India on September 2, 2017. For further details, see "History and Certain Corporate Matters" beginning on page 182 of the Red Herring Prospectus dated March 9, 2021 ("RHP") filed with the RoC and thereafter with the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), BSE Limited ("BSE") and National Stock Exchange of India Limited ("NSE", and together with BSE; the "Stock Exchanges").

Registered and Corporate Office: Unit No. 1101, Sharda Terraces, Plot No. 65, Sector 11, CBD Belapur, Navi Mumbai - 400 614, Maharashtra, India; Tel: +91 22 4043 5800; Website: www.suryodaybank.com; Contact Person: Geeta Krishnan,

mpany Secretary and Compliance Officer, E-mail: company.secretary@suryodaybank.com; Corporate Identity Number: U65923MH2008PLC261472

OUR PROMOTERS: BASKAR BABU RAMACHANDRAN, P. SURENDRA PAI, P. S. JAGDISH AND G. V. ALANKARA

INITIAL PUBLIC OFFER OF UP TO 19,093,070 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH ("EQUITY SHARES") OF SURYODAY SMALL FINANCE BANK LIMITED ("BANK" OR "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹[•] PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹[●] PER EQUITY SHARE) AGGREGATING UP TO ₹[●] MILLION (THE "ISSUE") COMPRISING A FRESH ISSUE OF UP TO 8,150,000 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[●] MILLION (THE "FRESH ISSUE") AND AN OFFER FOR SALE OF UP TO 10,943,070 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[●] MILLION ("THE OFFER FOR SALE"), COMPRISING UP TO 4,387,888 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[●] MILLION BY INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION, UP TO 2,021,952 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[●] MILLION BY GAJA CAPITAL FUND II LIMITED, UP TO 1,889,845 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[●] MILLION BY DWM (INTERNATIONAL) MAURITIUS LTD, UP TO 750,000 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[●] MILLION BY IDFC FIRST BANK LIMITED, UP TO 1,500,000 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[●] MILLION BY IDFC FIRST BANK LIMITED, UP TO 100,000 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[●] MILLION BY AMERICORP VENTURES LIMITED, UP TO 186,966 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[●] MILLION BY KOTAK MAHINDRA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED AND UP TO 106,419 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[●] MILLION BY GAJA CAPITAL INDIA AIF TRUST (REPRESENTED BY ITS TRUSTEE, GAJA TRUSTEE COMPANY PRIVATE LIMITED) (COLLECTIVELY, REFEERRED TO AS THE "SELLING SHAREHOLDERS" AND SUCH EQUITY SHARES THE "OFFERED SHARES").

THE ISSUE INCLUDES A RESERVATION OF UP TO 500,000 EQUITY SHARES, AGGREGATING UP TO ₹ [♦] MILLION (CONSTITUTING UP TO 0.47% OF THE POST-ISSUE PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL), FOR SUBSCRIPTION BY ELIGIBLE EMPLOYEES (THE "EMPLOYEE RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS THE EMPLOYEE RESERVATION PORTION IS HEREINAFTER REFERRED TO AS "NET ISSUE". THE ISSUE AND NET ISSUE SHALL CONSTITUTE 17.99% AND 17.52%, RESPECTIVELY, OF THE POST-ISSUE PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF THE BANK. THE BANK AND THE SELLING SHAREHOLDERS IN CONSULTATION WITH THE BOOK RUNNING LEAD MANAGERS, HAVE OFFERED A DISCOUNT OF UP TO 10% (EQUIVALENT OF ₹ 30 PER EQUITY SHARE) OF THE ISSUE PRICE TO ELIGIBLE EMPLOYEES BIDDING IN THE EMPLOYEE RESERVATION PORTION ("EMPLOYEE DISCOUNT")

QIB Portion: Not more than 50% of the Net Issue | Retail Portion: Not less than 35% of the Net Issue | Non-Institutional Portion: Not less than 15% of the Net Issue The Employee Reservation Portion: Up to 500,000 Equity Shares

Price Band: ₹303 to ₹305 per Equity Share of face value of ₹10 each.

A discount of ₹30 per Equity Share is being offered to Eligible Employees bidding in the Employee Reservation Portion. The Floor Price is 30.30 times the face value of the Equity Shares and the Cap Price is 30.50 times the face value of the Equity Shares. Bids can be made for a minimum of 49 Equity Shares and in multiples of 49 Equity Shares thereafter.

Simple, Safe, Smart way | of Application!!!

*Applications supported by blocked amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account, For further details, check section on ASBA below.

| Mandatory in public issues. No cheque will be accepted.

UPI-Now available in ASBA for Retail Individual Investors ("RIIs") applying through Registered Brokers, DPs and RTAs. Retail Individual Investors also have the option to submit the application directly to the ASBA Bank (SCSBs) or to use the facility of linked online trading, demat and bank account.

Investors are required to ensure that the bank account used for bidding is linked to their PAN.

•ASBA has to be availed by all the investors except Anchor investors. UPI may be availed by RIIs. • For details on the ASBA and UPI process, please refer to the details given in ASBA Form and abridged prospectus and also please refer to the section "Issue Procedure" beginning on page 377 of the RHP. • The process is also available on the website of Association of Investment Bankers of India "AIBI", BSE Limited ("BSE") and National Stock Exchange of India Limited ("NSE", and together with BSE, the "Stock Exchanges") and in the General Information Document. ASBA Forms can be downloaded from the websites of the Stock Exchanges and can be obtained from the list of banks that is displayed on the website of SEBI at www.sebi.gov.in. List of banks supporting UPI is also available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in. • For list of banks supporting UPI, please refer to the link; www.sebi.gov.in. For RIIs Bidding using the UPI Mechanism may apply through the SCSBs and mobile applications whose names appear on the website of SEBI (https://www.sebi.gov.in/sebiweb/other/OtherAction.do?doRecognisedFpi=yes&intmld=40) and (https://www.sebi.gov.in/sebiweb/otherAction.do?doRecognisedFpi=yes&intmld=40) and (https://www.sebi.gov.in/sebiweb/otherAction.do?doRecognisedFpi=yes&intmld=40) and (https://www.sebi.gov.in/sebiweb/otherAction.do?doRecognisedFpi=yes&intmld=40) and (https://www.sebi.gov.in/sebiweb/otherAction.do?doRe Fpi=yes&intmld=43) respectively, as updated from time to time. ICICI Bank Limited has been appointed as Sponsor Bank for the Issue. For issue related queries, investors may contact: the Book Running Lead Managers ("BRLMs") and Registrar to the ssue on their respective email IDs as mentioned below. For UPI related queries, investors can contact NPCI at the toll free number: 18001201740 and Mail Id: ipo.upi@npci.org.in.

Risks to Investors

- 1. The Book Running Lead Managers associated with the Issue have handled 34 public issues in the past three years out of which 11 issues closed below the issue price on listing date.
- 2. The Price/Earnings ratio based on diluted EPS on restated basis for Fiscal 2020 for the Issuer at the upper end of the Price band is 22.93.
- 3. Average cost of acquisition of Equity Shares for our Selling Shareholders ranges from ₹58.77 per Equity Share to ₹200.57 per Equity Share and offer price at upper end of Price band is ₹305.
- 4. Weighted Average Return on Net Worth for Fiscals 2020, 2019, 2018 is 8.99%.

BID/ISSUE PROGRAMME

OPENS TODAY

CLOSES ON: FRIDAY, MARCH 19, 2021

** The Bank and the Selling Shareholders may, in consultation with the Book Running Lead Managers, consider closing the Bid/Issue Period for QIBs one Working Day prior to the Bid/Issue Closing Date in accordance with the SEBI ICDR Regulations.

In case of any revision in the Price Band, the Bid/Issue Period will be extended by at least three additional Working Days after such revision in the Price Band, subject to the Bid/Issue Period not exceeding 10 Working Days. In cases of force majeure, banking strike or similar circumstances, the Bank and the Selling Shareholders may, for reasons to be recorded in writing, extend the Bid/Issue Period for a minimum of three Working Days, subject to the Bid/Issue Period not exceeding 10 Working Days. Any revision in the Price Band and the revised Bid/Issue Period, if applicable, shall be widely disseminated by notification to the Stock Exchanges, by issuing a public notice, and also by indicating the change on the respective websites of the Book Running Lead Managers and at the terminals of the Syndicate Members and by intimation to Designated Intermediaries and the Sponsor Bank, as applicable

The Issue is being made through the Book Building Process, in terms of Rule 19(2)(b) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended ("SCRR") with Regulation 6(1) of the SEBI ICDR Regulations, wherein not more than 50% of the Net Issue shall be allocated on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers ("QIBs", the "QIB Portion"), provided that the Bank and the Selling Shareholders may, in consultation with the Book Running Lead Managers, allocate up to 60% of the OIB Portion to Anchor Investors on a discretionary basis in accordance with the SEBI ICDR Regulations ("Anchor Investor Portion"), of which one-third shall be reserved for domestic Mutual Funds, subject to valid Bids being received from domestic Mutual Funds at or above the Anchor Investor Allocation Price. In the event of under-subscription, or non-allocation in the Anchor Investor Portion, the balance Equity Shares shall be added to the Net QIB Portion, Further, 5% of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis only to Mutual Funds, and the remainder of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIBs, including Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above the Issue Price. Further, not less than 15% of the Net Issue shall be available for allocation on a proportionate basis to Non-Institutional Bidders and not less than 35% of the Net Issue shall be available for allocation to Retail Individual Bidders in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received at or above the Issue Price. All potential Bidders (except Anchor Investors) are required to mandatorily utilise the Application Supported by Blocked Amount ("ASBA") process providing details of their respective ASBA accounts, and UPI ID in case of RIBs using the JPI Mechanism, if applicable, in which the corresponding Bid Amounts will be blocked by the SCSBs or under the UPI Mechanism, as the case may be, to the extent of respective Bid Amounts. Anchor Investors are not permitted to participate in the Issue through the ASBA process. For details, see "Issue Procedure" beginning on page 377 of the RHP.

Bidders/Applicants should ensure that DP ID, PAN and the Client ID and UPI ID (if applicable,in case RIIs) are correctly filled in the Bid cum Application Form. The DP ID, PAN and Client ID provided in the Bid cum Application Form should match with the DP ID. PAN. Client ID available in the Depository database, otherwise, the Bid cum Application Form is liable to be rejected. Bidders/Applicants should ensure that the beneficiary account provided in the Bid cum Application Form is active. Bidders/Applicants should note that on the basis of the PAN, DP ID and Client ID as provided in the Bid cum Application Form, the Bidder/Applicant may be deemed to have authorized the Depositories to provide to the Registrar to the Issue, any requested Demographic Details of the Bidder/Applicant as available on the records of the depositories. These Demographic Details may be used, among other things, for giving Allotment Advice or unblocking of ASBA Account or for other correspondence(s) related to the Issue. Bidders/Applicants are advised to update any changes to their Demographic Details as available in the records of the Depository Participant to ensure accuracy of records. Any delay resulting from failure to update the Demographic Details would be at the Bidders/Applicants' sole risk. Contents of the Memorandum of Association of the Bank as regards its objects: For information on the main objects and

other objects of the Bank, see "History and Certain Corporate Matters" on page 182 of the RHP and Clause III of the Memorandum of Association of the Bank. The Memorandum of Association of the Bank is a material document for inspection

in relation to the Issue. For further details, see "Material Contracts and Documents for Inspection" on page 438 of the RHP. Liability of the members of the Bank: Limited by shares

Amount of share capital of the Bank and Capital structure: The authorised, issued, subscribed and paid-up share capital of the Bank as on the date of the RHP is as follows: The authorised share capital of the Bank is ₹ 1,250,000,000 divided into 125,000,000 Equity Shares of ₹ 10 each. The issued, subscribed and paid-up share capital of the Bank is ₹ 979,808,260 divided into 97,980,826 Equity Shares of ₹10 each. For details, please see the section entitled "Capital Structure" beginning on page 73 of the RHP.

Names of signatories to the Memorandum of Association of the Bank and the number of Equity Shares subscribed by them: R. Baskar Babu. Ganesh Ramanand Rao and V.L. Ramakrishnan were the initial signatories to the Memorandum of sociation of the Bank pursuant to the subscription of 5,000 Equity Shares each by R. Baskar Babu, Ganesh Ramanand Rao and V.L. Ramakrishnan of face value of ₹10 each

Listing: The Equity Shares offered through this Red Herring Prospectus are proposed to be listed on the Stock Exchanges The Bank has received 'in-principle' approvals from BSE and NSE for the listing of the Equity Shares pursuant to letters dated November 13, 2020 and December 10, 2020, respectively. For the purposes of the Issue, the Designated Stock Exchange shall be NSE. A signed copy of this Red Herring Prospectus and the Prospectus shall be delivered to the RoC in accordance with Section 26(4) and 32 of the Companies Act 2013. For details of the material contracts and documents available for inspection from the date of this Red Herring Prospectus up to the Bid/Issue Closing Date, see "Material Contracts and Documents for Inspection" beginning on page 438 of the RHP.

Disclaimer Clause of the SEBI: SEBI only gives its observations on the offer documents and this does not constitute approval of either the Issue or the specified securities or the offer document. The investors are advised to refer to page 346 of the RHP for the full text of the Disclaimer Clause of SEBI. Disclaimer clause of RRI: It must be distinctly understood, however, that in issuing the license, the Reserve Bank of India

does not undertake any responsibility for the financial soundness of the Bank or for the correctness of any of the statements made or opinion expressed in this connection. The investors are advised to refer to page 346 of the RHP for the full text of the Disclaimer clause of RBI.

Disclaimer Clause of BSE: It is to be distinctly understood that the permission given by BSE should not in any way be deemed or construed that the RHP has been cleared or approved by BSE nor does it certify, warrants or endorses the correctness or completeness of any of the contents of the RHP. The investors are advised to refer to page 351 of the RHP for

Disclaimer Clause of NSE (Designated Stock Exchange): It is to be distinctly understood that the permission given by NSE should not in any way be deemed or construed that the Offer Document has been cleared or approved by NSE nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Offer Document. The investors are advised to refer to page 351 of the RHP for the full text of the Disclaimer Clause of NSE.

General Risks: Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in the Issue unless they can afford to take the risk of losing their entire investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in the Issue. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of the Bank and the Issue, including the risks involved. The Equity Shares in the Issue have not been recommended or approved by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the contents of the RHP. Specific attention of the investors is invited to "Risk Factors" beginning on page 22 of the

BOOK RUNNING LEAD MANAGERS

AXIS CAPITAL

Axis Capital Limited 1st floor, Axis House, C-2 Wadia International Centre, P. B. Marg,

Worli, Mumbai - 400 025, Maharashtra, India Tel: +91 22 4325 2183 E-mail: suryoday.ipo@axiscap.in Website: www.axiscapital.co.in nvestor Grievance ID: complaints@axiscap.in Contact Person: Mayuri Arya SEBI Registration Number: NM000012029

ficici Securities

ICICI Securities Limited ICICI Centre, H. T. Parekh Marg Churchgate, Mumbai - 400 020,

Tel: +91 22 2288 2460 E-mail: survodav.ipo@icicisecurities.com Website: www.icicisecurities.com Investor Grievance ID: customercare@icicisecurities.com Contact Person: Rishi Tiwari/ Nidhi Wangnoo SEBI Registration Number: INM000011179

IIFL SECURITIES

IIFL Securities Limited

10th Floor, IIFL Centre, Kamala City Senapati Bapat Marg, Lower Parel (West). Mumbai - 400 013. Maharashtra, India Tel: +91 22 4646 4600 E-mail: suryoday.ipo@iiflcap.com Website: www.iiflcap.com Investor Grievance ID:

ig.ib@iiflcap.com Contact Person: Ujjaval Kumar/ Vishal Bangard SEBI Registration Number: INM000010940

SBI Capital Markets Limited 202, Maker Tower 'E', Cuffe Parade Mumbai - 400 005, Maharashtra,

O

Tel: +91 22 2217 8300 E-mail: suryoday.ipo@sbicaps.com Website: www.sbicaps.com **Investor Grievance ID:** nvestor.relations@sbicaps.com Contact Person: Sambit Rath/ Janardhan Wagle SEBI Registration Number: INM000003531

KFINTECH Kfin Technologies Private Limited (formerly known as Karvy Fintech Private

REGISTRAR TO THE ISSUE

Limited) Selenium, Tower B. Plot No. - 31 and 32 Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad, Rangareddi 500 032, Telangana, India Tel: +91 40 6716 2222

E-mail: suryodayasfb.ipo@kfintech.com Website: www.kfintech.com Investor grievance ID: Contact Person: M. Murali Krishna **SEBI Registration Number:**

COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER Geeta Krishnan

Unit No.1101, Sharda Terraces, Plot No. 65, Sector 11, CBD Belapur, Navi Mumbai - 400 614, Maharashtra, India, Tel: +91 22 4035 800 E-mail:

company.secretary@suryodaybank.com Investors can contact the Company

Secretary and Compliance Officer, the BRLMs or the Registrar to the Issue in case of any pre-Issue or post-Issue related problems such as non-receipt of letters of Allotment, non-credit of Allotted Equity Shares in the respective beneficiary account, non-receipt of refund orders or non-receipt of funds by

AVAILABILITY OF RHP: Investors are advised to refer to the RHP and the Risk Factors beginning on page 22 of the RHP, contained therein before applying in the Issue. Full copy of the RHP is available on website of SEBI at www.sebi.gov.in, websites of the BRLMs, i.e. Axis Capital Limited, ICICI Securities Limited, IIFL Securities Limited and SBI Capital Markets Limited at www.axiscapital.co.in, www.icicisecurities.com, www.iiflcap.com and www.sbicaps.com, respectively and websites of BSE and NSE

AVAILABILITY OF BID CUM APPLICATION FORMS: Bid cum Application Forms can be obtained from the Registered Office of Suryoday Small Finance Bank Limited, Tel: +91 22 4043 5800; Book Running Lead Managers: Axis Capital Limited, Tel: +91 22 4325 2183; ICICI Securities Limited, Tel: +91 22 2288 2460; IIFL Securities Limited, Tel: +91 22 24646 4600; SBI Capital Markets Limited, Tel: +91 22 2217 8300 and Syndicate Members: SBICAP Securities Limited and Investec Capital Services (India) Private Limited and at the select locations of the Sub-syndicate Members, SCSBs, Registered Brokers, RTAs and CDPs participating in the Issue. ASBA Forms will also be available on the websites of BSE and the Designated Branches of SCSBs, the list of which is available at websites of the Stock Exchanges and SEBI.

Sub-Syndicate Members: Achievers Equities Limited, Anand Rathi Share & Stock Brokers Limited, Anand Share Consultancy, ANS Pvt Limited, Ashwani Dandia & Co, Axis Securities Limited, Bajaj Financial Securities Limited, Bonanza Portfolio Limited, Centrum Broking Limited, Choice Equity Broking Private Limited, Dalal & Broacha Stock Broking Pvt Limited, DB(International) Stock Brokers Ltd, Edelweiss Broking Limited, Eureka Stock & Share Broking Pvt Limited, DB(International) Stock Brokers Ltd, Edelweiss Broking Limited, Eureka Stock & Share Broking Pvt Limited, DB(International) Stock Brokers Ltd, Edelweiss Broking Limited, Eureka Stock & Share Broking Pvt Ltd., Kalpataru Multiplier Limited, DB(International) Stock Brokers Ltd, Edelweiss Broking Limited, Eureka Stock & Share Broking Pvt Ltd., Kalpataru Multiplier Limited, Limited, Limited, Limited, Eureka Stock & Share Broking Pvt Ltd., Kalpataru Multiplier Limited, Eureka Stock & Share Broking Pvt Ltd., Kalpataru Multiplier Limited, Eureka Stock & Share Broking Pvt Ltd., Kalpataru Multiplier Limited, Eureka Stock & Share Broking Pvt Ltd., Kalpataru Multiplier Limited, Eureka Stock & Share Broking Pvt Ltd., Kalpataru Multiplier Limited, Eureka Stock & Share Broking Pvt Ltd., Kalpataru Multiplier Limited, Eureka Stock & Share Broking Pvt Ltd., Kalpataru Multiplier Limited, Eureka Stock & Share Broking Pvt Ltd., Kalpataru Multiplier Limited, Eureka Stock & Share Broking Pvt Ltd., Kalpataru Multiplier Limited, Eureka Stock & Share Broking Stock & Share Broking Pvt Ltd., Kalpataru Multiplier Limited, Eureka Stock & Share Broking Pvt Ltd., Kalpataru Multiplier Limited, Eureka Stock & Share Broking Pvt Ltd., Kalpataru Multiplier Limited, Eureka Stock & Share Broking Pvt Ltd., Kalpataru Multiplier Limited, Eureka Stock & Share Broking Pvt Ltd., Kalpataru Multiplier Limited, Eureka Stock & Share Broking Pvt Ltd., Kalpataru Multiplier Limited, Eureka Stock & Share Broking Pvt Ltd., Kalpataru Multiplier Limited, Eureka Stock & Share Broking Pvt Ltd., Kalpataru Multiplier Limited, Eureka Stock & Share Broking Pvt Ltd., Kalpataru Multiplier Limited, Eureka Stock & Share Broking Pvt Ltd., Kalpataru Multiplier Limited, Eureka Stock & Share Broking Pvt Ltd., Kalpataru Multiplier Limited, Eureka Stock & Share Broking Pvt Services Limited, Kotak Securities Limited, Lakshmishree Investment & Securities Pyt Limited, LKP Securities Limited, Inventure Growth & Securities Ltd, Marwadi Shares & Finance, Master Capital Services Limited, Motilal Oswal Financial Services. Motifal Oswal Securities Little, Patel Wealth Advisors Pvt Limited, Prabhudas Lilladher Pvt Limited, Pravin Ratifal Share & Stock Brokers Limited, RR Equity Brokers Pvt Limited, SBICAP Securities Limited, India James & Stock Brokers Limited, RR Equity Brokers Pvt Limited, SBICAP Securities Limited, SMarekhan Limited, Stare & Stock Brokers Limited, RR Equity Brokers Pvt Limited, SBICAP Securities Limited, Sharekhan Limited, SMarekhan Limited, SMar Zerodha Broking Limited.

Escrow Collection Bank, Refund Bank and Public Issue Account Bank: ICICI Bank Limited All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the RHP.

For SURYODAY SMALL FINANCE BANK LIMITED On behalf of the Board of Directors

Company Secretary and Compliance Officer

Date: March 16, 2021 SURYODAY SMALL FINANCE BANK LIMITED is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offering of its Equity Shares and has filed the RHP with the Registrar of Companies, Maharashtra at Mumbai. The RHP shall be available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE and NSE at www.bseindia.com, respectively, and is available on the websites of the BRLMs i.e. Axis Capital Limited, ICICI Securities Limited, and SBI Capital Markets Limited at www.axiscapital.co.in, www.icicisecurities.com, www.iiflcap.com and aps.com, respectively. Bidders should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, please see "Risk Factors" on page 22 of the RHP. Potential Bidders should not rely on the DRHP filed with SEBI for making any investment decision.

The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act") or any other applicable law of the United States and, unless so registered, may not be offered or sold within the United States except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and applicable state securities laws. Accordingly, the Equity Shares are only being offered and sold (i) within the United States only to persons reasonably believed to be "qualified institutional buyers" (as defined in Rule 144A under the Securities Act, "Rule 144A") in transactions exempt from, or not subject to, registration requirements of the Securities Act, and (ii) outside the United States in offshore transactions in reliance on Regulation S under the Securities Act and pursuant to the applicable laws of the jurisdictions where those offers and sales are made. There will be no public offering of the Equity Shares in the United States.











M/s. Indiabulls Ventures Limited (Now known as Dhani Services Limited) Registered Office: M - 62 & 63, First Floor, Connaught Place, New Delhi - 110001

PUBLIC NOTICE

This is to bring to the notice of general public that Indiabulls Ventures Limited (now known as Dhani Services Limited) is going to surrender its SEBI Registration No. INH100004906 as Research Analyst. Henceforth, Indiabulls Ventures Limited (now known as Dhani Services Limited) shall not carry on any

Any aggrieved party may make representation against the surrender before Securities and Exchange Board of India (SEBI), Plot No. C4-A, 'G' Block Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400051, Maharashtra, within 15 days of the date of this notice

> For Indiabulls Ventures Limited (Now known as Dhani Services Limited

> > Raikumar Gupta



Place: New Delh

Date: March 17, 2021

(भारत सरकार का उद्यम) खनिज भवन, 10-3-311/ए, कैसल हिल्स, मास<u>ाब टैंक</u>, हैदराबाद- 500 028. CIN : L13100TS1958GOI1001674

संविदा विमाग निविदा प्रख्ताछ संः म्.(संविदा)/एनआईएसपी/ टीएससी एंड एचएसएम/ओएमएम/७६८

एनएमडीसी लिमिटेड इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र की एक "नवरल" कंपनी है जो "छनीसगढ़ राज्य में जगदलपुर के निकट नगरनार में 3.0 एमटीपीए इंटिग्रेटड स्टील प्लांट के लिए 2 वर्षों की अबधि हेतु थिन स्लैब कॉस्टर, टनल फनेंस एवं हॉट स्ट्रीप मिल (टीएससी एंड एचएसएम) के प्रचालन एवं यांत्रिक रखरखाव हेतु प्रौद्योगिकी सहयोग" प्रदान करने के लिए अनुभवी घरेलू बोलीकर्ताओं से ऑनलाइन बोलियां

विस्तृत एनआईटी एवं बोली कागजात एनएमडीसी की वेबसाइट http://www.nmdc.co.in केंद्रीय सार्वजनिव खरीद पोर्टलः http://www.eprocure.gov.in/epublish/app तथा एमएसटीसी पोर्टलः http://www. mstcecommerce.com/eprochome/nmdc पर दिनांक 17.03.2021 से 07.04.2021 तव अवलोकन/अथवा डाउनलोड किए जा सकते हैं ।

एमएसटीसी पोर्टल पर बोली कागजातों की एक्सेसिंग के लिए बोलीकर्ता एमएसटीसी वेबसाइट पर जाएं एवं निविद . मं. : एनएमडीसी /एचओ//137/20-21/ईटी/884 सर्च करें।

शद्भिपत्र, भविष्य में यदि कोई हो, के लिए बोलीकर्ताओं को नियमित आधार पर एनएमडीसी वेबसाइट/ सीपीर्प गोर्टल / एमएसटीसी वेबसाइट को देखना अपेक्षित है।

अतिरिक्त स्पष्टीकरण के लिए निम्नांकित से संपर्क किया जा सकता है

मख्य महाप्रबंधक (संविदा) एनएमडीसी लिमिटेड, हैदराबाद, फैक्स सं +91-040-23534746, दूरभाष +91-040-23532800, ई-मेल : steelcontracts@nmdc.co.in

हिन्द सिक्योरिटीज एंड क्रेडिट्स लिमिटेड पंजीकृत कार्यालयः डी-16, भूतल, उद्योग नगर, नंगलोई, दिल्ली-110041 CIN: L74899DL1993PLC056702

सम्पर्क नं.: + 91-9899425575, ई-मेलः supersecurities1993@gmail.com वेबसाइटः www.supersecurities.in

कंपनी के डिक्वरी शेयरों की सचीबद्धता सभी स्टॉक एक्सचेंजों से समाप्त कर दी गई है तथ इसलिए अब इसका लेनदेन नहीं होगा। आपको यह प्रस्ताव निकासी के लिए अंतिम मौका के रूप में प्रदान किया जा रहा है।

कंपनी के शेयरधारकों के रूप में कृपया ध्यान दें कि असूचीयन के कारण आप कंपनी के शेयर को स्टॉक एक्सचेंजों में बिकी नहीं कर पाएंगे तथा इसलिए आपको अपने शेयरों के निपटान र

हिन्द सिक्योरिटीज एंड क्रेडिट्स लिमिटेड ("कंपनी") के सभी शेष बचे हुए सार्वजनिक शेयरधारव को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि असूचीयन प्रस्ताव के सफलतापूर्वक समापन के उपरांत जिसे भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों के असूचीयन) विनियमन, 2009 के अध्याय VII एवं अन्य लागू प्रावधानों ("विनियमन") तथा तत्पश्चात उसमें किए गए संशोधन वे अनुसार सम्पन्न किया गया, जिसमें प्रोमोटर/अधिग्रहणकर्त्ता श्री परवीन गृप्ता तथा श्री प्रतीक गृप्ता द्वारा हिन्द सिक्योरिटीज एंड क्रेडिट्स लिमिटेड के सार्वजनिक शेयरधारकों के लिए रु. 13.00 (रुपये तेरह मात्र) के निकासी मूल्य पर निकासी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था।

बीएसई लिमिटेड[ं]ने अपनी सूचनाँ संदर्भ सं. 20210301-19ँ दिनांकित 1 मार्च, 2021 के तहत 16 मार्च 2021 को एक्सचेंज से कंपनी को गैर-सचीबद्ध कर दिया।

सेबी (इक्विटी शेयरों के असूचीयन) विनियमन, 2009 तथा तत्पश्चात उसमें संशोधन के अनुसा बीएससी लिमिटेड निर्धारित किया कि अधिग्रहणकर्त्ता को कंपनी के शेष बचे हुए सार्वजनिक शेयरधारकों के लिए एक निकासी का विकल्प प्रदान करना होगा। कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारकगण जिन्होंने असूचीयन प्रस्ताव में भागीदारी नहीं की अथवा भाग लेने में सक्षम नहीं थे अथवा जिन्होंने उपरोक्त प्रक्रिया में अपने शेयरों बेचने में असफल रहे हैं, अब उन्हें सेबी (इक्विटी शेयरों के असचीयन) विनियमन, 2009 तथा तत्पश्चात उसमें संशोधन के प्रासंगिक प्रावधानों के अनसा प्रोमोटर/अधिग्रहणकर्ता के पास रु. 13.00 (रुपये तेरह मात्र) प्रति शेयर के निकासी मल्य पर 17 मार्च, 2021 से 16 मार्च, 2022 तक यानी एक वर्ष की अवधि के लिए बिक्री करने का अंति तथा शेष अवसर प्रदान किया जाता है।

अधिग्रहणकर्त्ता के पास निकासी मल्य पर अपने शेयर बिकी करने के लिए सार्वजनिक शेयरधारक को आमंत्रण वाली प्रासांगिक संलग्निकाओं के साथ स्वीकृति पत्र शेष बचे हुए सभी सार्वजनिक शेयरधारकों, जिन्होंने असूचीयन प्रस्ताव में भागीदारी नहीं की अथवा भाग लेने में सक्षम नहीं थे अथवा जिन्होंने उपरोक्त प्रक्रिया में अपने शेयरों बेचने में असफल रहे हैं, के पास यथाशीघ्र भेज दिए

वांछित किसी भी विनियमन अनुमोदन की शर्त पर अधिग्रहणकर्ता 🛮 द्वारा अपेक्षित सभी दस्तावेज के साथ इन शेयरों की प्राप्ति के 15 दिनों के अंदर उस सभी शेयरधारकों को भुगत जाएगा, जिन्होंने अधिग्रहणकर्ता के पास अपने शेयरों को वैध रूप से सुपुर्द करेंगे।

शेष बचे हए इक्विटी शेयरों के लिए सुपूर्दगी की प्रक्रिया भौतिक प्रारूप में अपने इक्विटी शेयर धारण रखने वाले शेयरधारकों के लिए : भौतिक प्रारूप

में इक्विटी शेयरधारकगण जो अपने शेयर सुपुर्द करना चाहते हैं, उन्हें भलीभांति भरे हुए स्वीकृति प्रपत्र सह पावती पत्र, मूल भौतिक शेयर सर्टिफिकेट के साथ भलीभांति हस्ताक्षरित बैंक अंतरण विलेख साथ में प्रासंगिक अधिकार पत्र, यदि लागू हो, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय डी-16. भतल, उद्योग नगर, नांगलोई, दिल्ली-110041 के पास भेजना होगा।

. डिमैट प्रारूप में अपने इक्विटी शेयर धारण रखने वाले शेयरधारकों के लिए : लाभभोग स्वत्वाधिकारी तथा डिमैटरलाइज्ड प्रारूप में इक्विटी शेयरधारकों को भलीभांति भरे हुए स्वीकृति प्रपत्र सह पावती पत्र साथ में प्रासंगिक अधिकार पत्र, यदि लागू हो, के साथ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) द्वारा यथावत रूप से स्वीकृत ऑफ मार्केट प्रारूप में डिलीवरी की निर्देशावलिय अथवा ऑफ मार्केट प्रारूप में डिलीवरी निर्देशावलियों के काउंटरप्रवायल निम्नलिखित खाते में भेजना होगा तथा उसे अधिग्रहणकर्त्ता श्री परवीन गुप्ता/श्री प्रतिक गुप्ता, द्वारा हिन्द सिक्योरिटीज एंड क्रेडिट्स लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय डी-16, भूतल, उद्योग नगर, नंगलोई दिल्ली-110041 के पास भेजना होगा:

डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का नाम : परवीन गुप्ता डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट आईडेंटिफिकेशन नम्बर क्लाइंट आईडेंटिफिकेशन नम्बर 1201910102271538 एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड-नई दिल्ली संंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल

निकासी प्रस्ताव के संबंध में किसी भी तरह के प्रश्न रहने पर कृपया कंपनी के साथ सम्पर्क करें शेयरधारकों से कंपनी के पास अपने परिपर्ण दस्तावेज नीचे उल्लेखित पते पर यहां उल्लेखि डिलीवरी के प्रारूप के अनुसार सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 10.00 बजे से अपराहन 5.00 बजे तक सुपुर्द अथवा भेजने का अनुरोध किया जाता है।

सम्पर्क का प्रारूप नम्बर नम्बर डी-16, भतल पंजीकत डाक. +91 पारुल चङ्टा उपलब्ध स्पीड पोस्ट/ नांगलोर्ड कूरियर/ एवं अनुपालन दिल्ली-110041 हैंड डिलीवरी अधिकारी) कते हिन्द सिक्योरिटीज एंड क्रेडिटस लिमिटे

दिनांकः 16 मार्च, 2021 पारुल चड्ड कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

रेलवे का कभी निजीकरण नहीं होगा : गोयल

नई दिल्ली, 16 मार्च

ेल मंत्री पीयुष गोयल ने मंगलवार को स्पष्ट किया 🕨 कि रेलवे भारत की संपत्ति है और उसका कभी निजीकरण नहीं होगा। उन्होंने साथ ही कहा कि यात्रियों को अच्छी सुविधाएं मिलें. रेलवे के जरिये अर्थव्यवस्था को मजबती मिले. ऐसे कार्यों के लिए निजी क्षेत्र का निवेश देशहित में होगा।

लोकसभा में वर्ष 2021-22 के लिए रेल मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए पीयूष गोयल ने कहा, 'दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि कई सांसद निजीकरण और कॉर्पोरेटाइजेशन का आरोप लगाते हैं। भारतीय रेल का निजीकरण नहीं होगा।' उन्होंने कहा, 'मैं विश्वास दिलाता हूं कि रेलवे भारत की संपत्ति है उसका कभी निजीकरण नहीं होगा।'



पीयूष गोयल

को मंजुरी दे दी।

गौरतलब है कि सोमवार को चर्चा के दौरान कांग्रेस के जसबीर सिंह गिल, आईयूएमएल के ईटी मोहम्मद बशीर सहित कुछ अन्य सदस्यों ने रेलवे का निजीकरण करने का प्रयास किए जाने संबंधी टिप्पणी की थी। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए रेल मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनदानों की मांगों

गोयल ने कहा कि कि

लिए अगर निजी क्षेत्र निवेश करता है तो क्या इस पर विचार नहीं होना चाहिए। मंत्री ने कहा कि पिछले 7 वर्षों में रेलवे में लिफ्ट, एस्केलेटर एवं सुविधाओं के विस्तार की दिशा में अभूतपूर्व काम किये गए। उन्होंने कहा, 'यदि हमें अत्याधुनिक विश्वस्तरीय रेलवे बनाना है तो बहुत धन की आवश्यकता होगी। रेल मंत्री ने कहा, 'अगर निजी निवेश भी आए तो देश हित में, यात्रियों के हित में है। निजी क्षेत्र जो सेवाएं देगा, वे भारतीय नागरिकों को मिलेंगी। रोजगार मिलेंगे। देश अर्थव्यवस्था बढेगी।'

उन्होंने कहा, 'सरकार और निजी क्षेत्र जब मिलकर काम करेंगे, तभी देश का उज्ज्वल भविष्य बनाने में सफल होंगे।' पीयूष गोयल ने कहा कि अमृतसर के लिए 230 करोड़ रुपये के निवेश के साथ योजना बनाई गई है।

हमेशा पीएसयू को बहाल करने की कवायद हुई

केंद्रीय भारी उद्योग एवं

सार्वजनिक उद्यम मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि सरकार ने हमेशा यह कवायद की है कि जो सार्वजनिक उपक्रम सुधर सकते हैं, उन्हें बहाल किया जाए। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान जावडेकर ने कहा कि हमेशा यह कवायद रहती है कि पीएसयू की पूरी क्षमता का इस्तेमाल हो। उन्होंने कहा कि 'हमेशा यह सुनिश्चित करने की कवायद की गई है कि जिन इकाइयों को बहाल किया जा सकता है, उन्हें बहाल किया जाए। सरकार ने कुछ पीएसयू की बहाली, विलय या पुनर्गठन को मंजूरी दी है। एजेंसियां

संप्रग ने एक परिवार के लिए करदाताओं के धन का निजीकरण कियाः सीतारमण

इंदिवजल धस्माना नई दिल्ली, 16 मार्च

वैंकों सहित सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के निजीकरण में कर्मचारियों के हितों की रक्षा का आश्वासन देते हए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि संयक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सररकार ने भ्रष्टाचार का राष्ट्रीयकरण और एक परिवार के लिए करदाताओं के धन का निजीकरण किया।

इससे पहले राहल गांधी ने हडताल कर रहे बैंक कर्मचारियों के साथ एकजुटता दिखाने की बात करते हुए दिन में ट्वीट कर आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार मुनाफे का निजीकरण और घाटे का राष्ट्रीयकरण कर रही है।

वित्त मंत्री ने कहा, 'उनकी

दादी (इंदिरा गांधी) ने भले ही बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया होगा, लेकिन बैंकों के नुकसान का राष्ट्रीयकरण यूपीए के समय में हुआ। मैं एक बात और जोडना चाहंगी- भ्रष्टाचार का राष्ट्रीयकरण इन्होंने किया।' उन्होंने कहा. 'भ्रष्टाचार का राष्टीयकरण और एक परिवार की भलाई के लिए करदाताओं के पैसे निजीकरण, यह सब राहुल गांधी को उस ट्वीट के जवाब के रूप में लेना होगा।'

इसके पहले सीतारमण ने संसद को बताया कि रिजर्व बैंक नियामकीय और निगरानी क्षमता मजबृत बनाने के लिए और उपाय कर रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इन उपायों से भविष्य में नियामकीय स्तर पर कोई अप्रिय घटना नहीं होगी।

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे जुटाएगी 48,464 करोड़ रु

ज्योति मुकुल

नई दिल्ली, 16 मार्च

प्राधिकरण की दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए बनी विशेष उद्देश्य (एसपीवी) डीएमई डेलवपर्स लिमिटेड (डीएमईएल) कर्ज के माध्यम से 48,464 करोड़ रुपये जटाएगी। एनएचएआई इसमें 5,385 करोड रुपये इक्विटी डालेगी जिससे कर्ज इक्विटी अनुपात 9:1 का रहेगा।

एनएचएआई ने एक विज्ञप्ति में कहा कि परियोजना में डीएमईएल की भूमिका कर्ज जुटाने और उसके भगतान तक सीमित रहेगी।

एनएचएआई कर्जदाताओं को लेटर आफ कंफर्ट दे रही कंसेसन समझौता. इसे लाग करने का समझौता, लेटर आफ कंफर्ट को अंतिम रूप दे दिया गया है। क्रिसिल, केयर रेटिंग और इंडिया रेटिंग से एसपीवी को एएए रेटिंग मिली है। एनएचएआई डीएमईएल को एन्युटी भुगतान करेगा, जिसके लिए कर्ज के समय से भगतान और अन्य मामलों के ढांचा तैयार किया जाएगा। विज्ञप्ति में कहा गया है कि एनएचएआई के उच्च हाइवे/एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के लिए भी इस तरह की एसपीवी बनाएगा। इसमें कहा गया है, 'इससे राष्टीय महत्त्व की अन्य

बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं काम करने के लिए पर एनएचएआई की क्षमता बढेगी। इस एसपीवी के माध्यम से एनएचएआई ने अपने संसाधन के आधार के विविधीकरण और विशेष रूप से सतत वित्त जुटाने की योजना बनाई है।'

दिल्ली-मंबई 'भारतमाला परियोजना' के तहत प्रमख नई परियोजना है। यह परियोजना 48 उप परियोजनाओं के तहत लागू की जा रही है, जिनमें 17 हाइब्रिड एन्युटी मॉडल की परियोजनाएं (वडोदरा-मुंबई सेग्मेंट) और 31 ईपीसी मॉडल (दिल्ली-वडोदरा सेग्मेंट) के तहत हैं। इन 48 उप परियोजनाओं

में 27 निर्माणाधीन हैं, 17 का आवंटन हो चुका है और उन पर काम शुरू होना है और शेष परियोजनाओं के आवंटन की प्रक्रिया चल रही है।

इस परियोजना को मार्च 2023 में पुरा किए जाने का लक्ष्य है, जिसका एक खंड जेएनपीटी तक जाने वाला सितंबर 2023 पुरा हो जाएगा। नई परियोजना की कुल अनुमानित लागत करीब 87,500 करोड रुपये है, जिसमें 20,600 करोड़ रुपये भूमि अधिग्रहण लागत शामिल है। भूमि अधिग्रहण के अलावा निर्माण की अवधि के दौरान अन्य चीजों पर करीब 53,849 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

मौजूदा बीमा योजना में प्रीमियम बढाने वाले संशोधन संभव नहीं

नियामक ने

बीएस संवाददाता

मुंबई, 16 मार्च

बीमा नियामक ने आज कहा कि स्वास्थ्य बीमा संशोधन करते समय जनरल और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों को किसी विशेष बीमा योजना के मौजूदा लाभों में बदलाव करने और

की अनुमति नहीं दी जा सकती, जिससे अंततः प्रीमियम में बढोतरी हो सकती है।

उसमें नए लाभ जोड़ने

लेकिन नियामक ने कहा कि बीमा कंपनियां अपनी बीमा

योजना में छोटे बदलाव कर सकती हैं। साथ ही नया लाभ जोडने व मौजुदा लाभों का उन्नयन करने की पेशकश एकल

> प्रीमियम दर के साथ एड-ऑन कवर या वैकल्पिक कवर के रूप में की जा सकती पॉलिसीधारक

पहले से सुचना मिल सके। नियमों मुताबिक प्राधिकरण से

मिलने के एक साल के भीतर अपने बीमा उत्पाद में कोई संशोधन नहीं कर सकती हैं।

खपत से दोगुने रहेंगे दफ्तर

राघवेंद्र कामत मुंबई, 16 मार्च

अगले कुछ वर्षों में शीर्ष महानगरों में कार्यालय परिसंपत्तियों की भरमार होगी क्योंकि महामारी के कारण स्थानों की खपत में कमी आने के आसार हैं।

मुंबई, एनसीआर, बेंगलूरु, हैदराबाद, पुणे और चेन्नई जैसे शीर्ष छह शहरों में वित्त वर्ष 2021 और वित्त वर्ष 2023 के बीच कार्यालय स्थलों की आपूर्ति इसकी खपत से दोगुनी रहने की उम्मीद जताई जा रही है। यह जानकारी इंडिया रेटिंग्स की ओर से जुटाए गए आंकड़ों से सामने आई है।

इंडिया रेटिंग्स ऐंड रिसर्च के सहायक निदेशक अभिषेक शुक्ला ने कहा, 'मांग से अधिक आपूर्ति की स्थिति इसलिए नजर आ रही है कि महामारी से पहले जिन कार्यालयों का निर्माण शुरू हो चुका था उनमें से अधिकांश

को देर सवेर पूरा किया जाना है।' शक्ला ने कहा कि दूसरी तरफ शुद्ध रूप से

बढी हुई खपत मोटे तौर पर महामारी से पूर्व के औसत वार्षिक स्तर से 40 फीसदी कम रह सकता है। उन्होंने कहा, 'ऐसा इसलिए है कि घर से काम करने की व्यवस्था से नए मांग में कमी आ सकती है और संभवत: कुछ पट्टेदार पुराने पट्टों को वापस लौटा सकते हैं क्योंकि वे आवश्यकतानुसार डेस्क देने (हॉट डेस्किंग) की नीति पर काम कर रहे हैं। इस नीति में प्रत्येक दिन कार्यालय नहीं आने वाले कर्मचारियों द्वारा एक ही डेस्क साझा किया जाता है। इससे किराये पर दबाव में कमी आ सकती है खासकर निर्माणाधीन संपत्तियों के लिए क्योंकि वे अतिरिक्त आपूर्ति वाले बाजार में पट्टेदार ढूंढने का प्रयास करते हैं।' उन्होंने कहा कि नए कार्यालयों के लिए किराये में 30 फीसदी से अधिक की कमी आ सकती है क्योंकि आपूर्ति मांग से अधिक रहेगी।

पृष्ठ 1 का शेष

वित्तीय सेवा सचिव देवाशिष पांडा ने कहा कि बीमा फंड इस समय भी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश कर रहे हैं, लेकिन जब सरकार समर्थित संस्थान होगा तो पैसा लगाने

को लेकर उनमें भरोसा बढेगा। उन्होंने कहा, 'हम उम्मीद करते हैं नियामक निवेश बढाएगा।'सीतारमण ने कहा कि प्रस्तावित डीएफआई के प्रबंध निदेशकों और उप प्रबंध निदेशकों को बाजार अनुकूल पारितोषिक दिया जाएगा, जिससे सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को

उन्होंने कहा, 'हम प्रबंध निदेशक और उप प्रबंध निदेशकों के लिए उम्र की ऊंची सीमा रखने की संभावना

इससे जोडा जा सके।

संस्थान तेजी से बाजार की उम्मीदों पर वित्त मंत्री ने कहा कि डीएफआई

तलाश रहे हैं। मेरा मानना है कि यह

डीएफआई बनाने के विधेयक को मंजूरी

के निदेशकमंडल को पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त करने और हटाने का अधिकार होगा।जे सागर एसोसिएट्स में पार्टनर सौमित्र मजूमदार ने कहा, 'डीएफआई को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सभी तरह की दीर्घावधि पूंजी तक पहुंच की अनमति होनी चाहिए। परियोजनाओं के प्रभावी निगरानी के लिए क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा नजर रखे जाने की जरूरत होगी।

स्पाइस रूट लीगल के पार्टनर मैथ्यू चाको ने कहा कि यह कदम संभवत: दस साल बाद उठाया गया है लेकिन देर आयद, दुरुस्त आयद इससे पहले कार्यबल की सिफारिशों के आधार पर सरकार राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन लेकर आई है। इसके तहत 7.671 परियोजनाओं का खाका तैयार किया गया है, जिनकी कुल लागत 1,919.05 अरब डॉलर है। ये परियोजनाएं 2024-25 तक पूरी की जानी हैं। इनमें से 1,766 परियोजनाओं पर काम शुरू हो चुका है।

देश बुनियादी परियोजनाओं को वित्तपोषण की समस्या का सामना करना पड रहा है क्योंकि बैंक दीर्घावधि की जरूरत के बजाय अल्पावधि का कर्ज देने में सहज महसस करता है। हालांकि देश में कई क्षेत्रों के लिए इस तरह के संस्थान पहले से हैं जैसे भारतीय रेल वित्त निगम, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक और भारतीय लघु उद्योग

डीजल-पेट्रोल की बिक्री बढी

रॉयटर्स

नई दिल्ली, 16 मार्च

भारत में मार्च के पहले पखवाड़े में एक साल पहले की समान अवधि की तुलना में डीजल की बिक्री 7,4 प्रतिशत बढ़कर 28.4 लाख टन हो गई है। मंगलवार को जारी उद्योग के शुरुआती आंकड़ों से यह पता चलता है। पेट्रोल की बिक्री पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 5.3 प्रतिशत बढ़कर 10.5 लाख टन हो गई है। अक्टूबर के बाद से देश में पहली बार पेट्रोल की बिक्री में बढ़ोतरी हुई है।

पिछले साल मार्च में

के लिए सरकार ने देशबंदी की घोषणा की थी, जिससे भारत में ईंधन की बिक्री प्रभावित हुई थी। भारत की अर्थव्यवस्था दिसंबर तिमाही में वृद्धि की पटरी पर लौट आई और उम्मीद की जा रही है कि अब ग्राहक व निवेशक कोविड-19 के दौर से बाहर निकल रहे हैं और इससे आगे और

कोरोनावायरस के प्रसार को रोकने

पेट्रोल की बिक्री, जिसकी देश में कुल ईंधन की मांग में हिस्सेदारी 5 में से करीब दूसरा हिस्सा है, खुदरा दाम रिकॉर्ड स्तर पर होने के बावजूद बढ़ी है। इससे देश में


औद्योगिक उत्पादन बढ़ने के

संकेत मिलते हैं। सरकारी कंपनियों इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और भारत पेट्रोलियम की देश के कल खदरा पेटोल पंपों में हिस्सेदारी 90 प्रतिशत है। सरकारी कंपनियों ने मार्च के

शुरुआती 15 दिनों में एक साल पहले की समान अवधि की तुलना में रसोई गैस 3.3 प्रतिशत कम बेचा है। आंकड़ों से पता चलता है कि इस दौरान रसोई गैस की बिक्री 10.1 लाख टन रही, जिस पर सब्सिडी घटा दी गई है। जेट ईंधन की बिक्री 36.5 प्रतिशत गिरकर 2,04,000 टन

बीएस सूडोकू 3998

परिणाम संख्या 3997



★★★☆

हर, रो, कॉलम और 3

के बाई 3 के बॉक्स में

एक से लेकर नौ

तक की संख्या भरें।

हापुड़

हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड

सीआईएन : L74899DL1970GOI005276 जीएसटी नं.: 07AAACH0632A1ZF पंजीकृत कार्यालय : हडको भवन, भारत पर्यावास केन्द्र, लोघी रोड, नई दिल्ली—110003, टेली.: 011-24649610-23 फैक्स नं.011-24625308, वेबसाईटः www.hudco.org, हमें फॉलो करें :

एतदद्वारा सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेगुलेशंस, 2015 के संबंधित प्रावधानों और कंपनीज

एक्ट, 2013 के अनुसार यह नोटिस दिया जाता है कि दिनांक 18 मार्च, 2021 को हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल की बैठक वित्तीय वर्ष 2020—21 के लिए अंतरिम लाभांश के भुगतान की सिफारिश और अनुमोदन एवं अंतरिम लाभांश के भुगतान के लिए अंशधारकों के हित्त का निर्धारण करने की रिकॉर्ड तिथि के लिए आयोजित की जाएगी। इक्विटी शेयरों पर अंतरिम लाभांश, यदि बोर्ड द्वारा घोषित और अनुमोदित किया जाता है, जिन के नाम रिकॉर्ड तिथि पर एनएसडीएल और सीडीएसएल के रिकॉर्ड में इलेक्ट्रॉनिक मोड में लाभकारी मालिकों के रूप में होंगे और भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के संबंध में, कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में सदस्य के रूप में होंगे, तो इस का भुगतान उन सदस्यों को आयकर

अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार भुगतान करते समय कर में कटौती के बाद घोषणा के 30 दिनों के भीतर किया जाएगा। रियायती दरों पर कटौती सहित स्रोत पर करकी कटौती से छूट का दावा करने के लिए, शेयर धारकों को आयकर अधिनियम 1961 के तहत निर्धारित आवश्यक दस्तावेजों को केवल <u>dividend.tax@hudco.org</u> 26 मार्च, 2021 तक प्रस्तुत करना आवश्यक है। इस संबंध में 26 मार्च, 2021 के बाद कोई भी दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जाएगा।

कर में कटौती के संबंध में विस्तृत कम्युनिकेशन अंशधारकों को उनके पंजीकृत ईमेल पते पर लागू प्रावधानों के अनुसार उचित समय पर भेजा जाएगा। कृते हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड

दिनांक: 16.03.2021 स्थानः नई दिल्ली

हरीश कुमार शर्मा कंपनी सचिव

क्षेत्रीय मंडियों के भाव

दिल्ली सराफा बाजार में मंगलवार को सोना ४५ रुपये सुधर कर ४४,४८१ रुपये प्रति दस ग्राम के भाव पर पहंच गया। पिछला बंद भाव ४४,४३६ रुपये प्रति 10 ग्राम था। चांदी में भी चमक देखी गई और इसका भाव प्रति किलोग्राम ११६ रुपये सुधर कर 66,740 रुपये पर पहुंच गया। पिछले दिन का बंद भाव 66,624 रुपये प्रति किलोग्राम था। वैश्विक बाजार में सोना 1.730 डालर प्रति औंस पर नरम

था। चांदी २६.११ डालर प्रति औस के

पिछले स्तर पर बनी रही। बंद भाव रूपये प्रति क्विंटल

गेहूं दड़ा 1735/1745, गेहूं शरबती 2500/2600, चावल शरबती सेला 4300/4350, स्टीम 4800/4900, लालमती ३४००/३५००, चावल (सोना) ३२००/३३००, दाल अरहर सवा नं.

8400/8700, पटका 9200/9600 रिजैक्शन 7000/7200, चना दाल 6000/6400, चना देशी छना 6000/6100, चना चापा छना 5800/5900, एग्रो प्योर बेसन २५१०, विदेशी ७८००/८६००, उडद साबुत (काला)८७००/९५००, दाल उड़द (काली) 9000/10400, उड़द धोया 8800/10000, मसूर 6800/7400, मलका 6900/7100, किरानाः जीरा 15200/15500, लालिमर्च गुंदूर 16000/20500, हल्दी निजाम गट्ठा (50 किलो) धनिया 4900/5450, 8500/11600, छोटी इलायची (किलो) 1700/2150, बड़ी इलायची 525/600, कालीमिर्च (किलो) ४४०/४८०, सुपारी (किलो) 410/425, सौंफ मोटी 7500/9800, मंगरैल 22000/23000, चिरोंजी (किलो) 1280/1350, मखाना

1450, चावल मसुरी 1950/2000, चावल मोटा 1800/1900, देशी चना 5300/5400, चना छना 5600/5650. दाल चना 6000/6300, विदेशी मटर 7700/7800, पिचकी 5400/5500, मटर दाल 8000/8200, अरहर लेमन 6825/6850, दाल अरहर 9500/9800, स्पेशल ८६००/९२००,उड़द एसक्यू 8600/8650, एफएक्यू 7650/7660, राजमा चित्रा 10600/12000, मूंग 6300/6500, मसूर छोटी 6125/ 6550, छांटी 7000/7100, सरसों 5300/5500, तिल सफेद 9600/9700, सोया (टीन) 2250/2280, तेल सरसों कच्ची घानी वैट पेड (टीन)2300/2400, सरसों खल २७००/२७५०, पामोलिन 2160/2170, वनस्पति घी (यूपी एफओआर) १९५०/२०२५, मधुसूदन देशी घी ६४००, वासुदेव ६०००, परम

उत्तर प्रदेश

प्रीयिम 6500, पदम श्री 6400, गेहूं लूज 1725/1730, जो 1400/ अलसी ६८००/७००, धनियाः लोकल ८४००/८६००, राजस्थान ८८००/९०००. केरल ४१०/४४०, कर्नाटक चिकनी 400/420, गोला 20000/21500 बोल्ड 1165 मजफ्फरनगर

१०२००/१०७०, हल्दी 9400/10700, जीरा 14700/17400, अजवायन १४७०/१७३००, मेथी 7200/7500, मखाना 700/875, कालीमिर्च (किलो) 415/460, लालिमर्च (किलो) तेजा 175/190, (३३४) न. १५५/१६०, सुपारी (किलो)

(प्रति किलो)ः मैन्था ऑयल 1122, बोल्ड क्रिस्टल (१२ नं.)११५०, फ्लैक 1110, डीएमओ 880, टरपीन लैस

गुड़ (40 किलो)ः लड्डू 1025/1115, खरपा ९३५/९७५,चाकू १०२५/११३५, रसकट 900/910, शक्कर 1100/

11700/12100, मटर दाल 6200/ 6300, दाल अरहर 8100/9600, मसूर 6000/6100, उड़द देसी 7400/7500, दाल उड़द 8000/8500, धोया 8500/9500, मूंग यूपी 7500/7600, मूंग दाल ८५००/९०००, गुड़-चीनीः चीनी हाजिर ३४००/३५००, गुड़ (प्रति 40 किलो) बाल्टी 900/915, चना छिलका १८५०/१९००, चोकर मोटा (34 किलो) 580/585

अनाज-दालः गेहूं १८२०/१८२५, चावल परमल २२५०/२३००, डुप्लीकेट बासमती सेला 4900/5000, बासमती 1121 स्टीम 6200/6300, चना 5400/

चीनी हाजिर 3450/3550

5500, चनादाल 5900/6100, काबली चना ६३००/७५००, राजमा देशी चित्रा

1110, चीनी मिल डिली. (क्विं.)

(जीएसटी अतिरिक्त)ः खतौली ३३००,

सिहोरा ३१७०, थाना भवन ३१५५,

महाविद्यालयांतील प्रवेशांत घट

मुंबई, दि. १६, (प्रतिनिधी) : मुंबई आणि परिसरातील महाविद्यालयांना कोरोना प्रादुर्भावाचा फटका बसल्याचे दिसत असून यंदा शहर आणि उपनगरातील महाविद्यालयांमधील विद्यार्थ्यांचे प्रवेश घटले आहेत. यंदा बारावीचा निकाल घसघशीत लागल्यामुळे प्रत्यक्षात प्रथम वर्षाच्या प्रवेशात वाढ होण्याची शक्यता होती. मात्र, प्रत्यक्षात यंदा मुंबई आणि उपनगरांतील महाविद्यालयांतील प्रवेश घटल्याचे दिसत आहेत. विविध पदवी अभ्यासक्रमांसाठी गेल्या वर्षी (२०१९-२०) मुंबई शहरातील महाविद्यालयांमध्ये ६५ हजार ३४९ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला होता. यंदा (२०२०-२१) मात्र ५२ हजार ६७३ विद्यार्थ्यांनीच प्रवेश घेतल्याचे दिसत आहे. उपनगरांतील महाविद्यालयांमध्येही प्रवेश घटले आहेत. गेल्यावर्षी उपनगरांतील महाविद्यालयांमध्ये ५१ हजार ७२२ प्रवेश झाले होते तर यंदा ४४ हजार ३६८ प्रवेश झाले आहेत. अधिसभा सदस्य आरती प्रसाद यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला विद्यापीठ प्रशासनाने दिलेल्या उत्तरातून ही माहिती पुढे

प्रवेशात घट का? कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे

आली आहे.

अनेक कुटुंबांना नोकऱ्या गमवाव्या लागल्या. त्यामुळे शुल्क भरण्यापासून अनेक अडचणींना कुटुंबांना तोंड द्यावे लगत आहे. त्याचा परिणामही प्रवेशावर झाला असल्याचे निरीक्षण प्राचार्यांनी नोंदवले आहे. त्याचप्रमाणे राज्यातील इतर भागांतून आणि परराज्यातून मुंबईत शिकण्यासाठी येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्याही कमी झाली आहे. त्यामुळे प्रवेशात घट दिसत आहे. 'आर्थिक कारण हे प्रवेश कमी होण्यामागील प्रमुख कारण आहे. प्रामुख्याने विनाअनुदानित महाविद्यालयांमधील प्रवेशांत अधिक घट असण्याची शक्यता आहे. त्याचप्रमाणे अजून वसतिगृहे सुरू झालेली नाहीत, त्यामुळे बाहेरून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्याही कमी झाली आहे. अपंग विद्यार्थ्यांनाही प्रवेश, निवास अशा सुविधा पुरेशा मिळ् शकल्या नाहीत तर हे विद्यार्थीही प्रवाहाबाहेर जाऊ शकतात,' असे मत अभ्यासक आनंद मापुसकर यांनी व्यक्त केले. ऑनलाइन शिक्षणाचे पर्याय

'ऑनलाइन शिक्षणाचेही पर्याय वाढत आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा कल ऑनलाइन किंवा दूरशिक्षणाच्या माध्यमातून शिकण्याकडेही वादला आहे. त्याचपमाणे सार्वजनिक विद्यापीठांना खासगी विद्यापीठांची मोठी स्पर्धा सुरू झाली आहे. आकर्षक, नवख्या नामाभिधानाच्या पदव्या ही विद्यापीठे देतात. त्यामुळे विद्यार्थी तेथेही प्रवेश घेत आहेत,' असेही एका प्राचार्यांनी सांगितले.

झोपडी-चाळीत राहणारे सुंहढः, सर्वेक्षणाचा निष्कर्ष मुंबई, दि. १६, (प्रतिनिधी)

: 'लुळीपांगळी श्रीमंती आणि धट्टीकट्टी गरिबी' अशी म्हण सर्वश्रुत असून त्याचा पडताळा मुंबईतील कोरोना रुग्णसंख्येच्या विश्लेषणातून समोर येत आहे. मुंबईत इमारती, उच्चभ्र वसाहतीत राहणाऱ्या रहिवाशांमधील प्रतिकारशक्ती ही चाळी-झोपडपट्टीत राहणाऱ्या रहिवाशांपेक्षा कमी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पालिकेने मुंबईकरांची प्रतिकारशक्ती तपासण्यासाठी हाती घेतलेल्या सेरो सर्वेक्षणातून या निष्कर्षांवर शिक्कामोर्तब झाले आहे. पालिकेने घेतलेला सेरो सर्वेक्षण अहवाल पाहिल्यास, त्यात चाळ-झोपडपट्टीधारकांमध्ये ॲंटिबॉडीज तयार होण्याचे प्रमाण ४५ ते ५७ टक्के आहे. तर. इमारतींत राहणाऱ्या रहिवाशांमध्ये हे प्रमाण १६ ते २१ टक्के इतकेच असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. करोना प्रसार आणि प्रतिकारशक्ती तपासण्या यांचा आढावा सेरो सर्वेक्षणात घेतला. त्या सेरो सर्वेक्षणातील दोन टप्पे पूर्ण झाले आहेत. तिसऱ्या टप्प्याची प्रक्रिया सुरू असून त्यातील निष्कर्ष एकूण प्रतिकारशक्ती वाढत असल्याचे संकेत देत आहेत. तिसऱ्या टप्प्यातील पहिल्या भागाच्या अहवालातही चाळ-झोपडीधारकांमधील प्रतिकारशक्ती चांगली असल्याचे आढळून आल्याचे पालिकेच्या ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.

PUBLIC NOTICE OF LOSS OF SHARE CERTIFICATE This is to inform the General Public that following share certificate of Apcotex Industries Ltd, having its Registered Office at 49/53 Mahaveer Centre, Plot no. 77, Sector 17, Vashi, Navi Mumbai - 400703, CIN: L99999MH1986PLC039199, registered in the

name of the following shareholder have been lost:

Sr. Folio Name Of Shareholder Total No. Certificate No. Distinctive No./s 1 2305 Rameshwar Swaroop 90 The Public are hereby cautioned against purchasing or dealing in any way with the above referred share certificate. Any person who has any claim in respect of the said share certificate should lodge such claim with the company or it's Registrar and Transfer Agents Link Intime Pvt. Ltd., C 101, 247 Park, L.B.S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400083, within 15 days of publication of this notice after which no claim will be entertained and the company shall proceed to issue Duplicate Share Certificate. Rameshwar Swaroop

(Shabita R Swaroop - Wife / Legal Heir) Place: Mumbai Name of the Shareholde

मुमेवाडी सहकारी पतपेढी मर्यादित मुंबई

(नोंदणी क्र. बी. ओ. एम. / आर. एस. आर. / १०७६ : सन १९८०)

४० व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची नोटीस

सर्वसाधारण सभा **रविवार दि. २१.०३.२०२१** रोजी, **सध्याकाळी ४.००** वा. मातृछाया खो. क्र. १, करीरोड (प), मुंबई-१३ या ठिकाणी संस्थेचे अध्यक्ष **श्री गोविंद कृ. पाटील** याचे अध्यक्षतेखाली आयोजित केलेली आहे. कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे शासकीय नियमानुसार सदर सभा ऑनलाईन प्रद्धतीने घ्यावयाची असल्याने प्रत्यक्ष उपस्थिती अपेक्षित नाही प्रस्तावीत लिकचा वापर करून सभेत सहभागी व्हावे व निर्णय घेण्यात सहकार्य करावे

त्यासाठी सभासदानी आपला व्हॉट्सअप मोबाईल क्रमाक संस्थेच्या टेलीफोन न ०२२-३०१४७७० वर कळवावा, तसेच संस्थेची लिंक सभासदाना त्यांच्या नोंदणीकृत मोबाईल क्रमाकावर कळविण्यात येईल, याची नोंद घ्यावी

संचालक मंडळाच्या समतीने श्री. गोविंद कृष्णा पाटील

सूचना:- ऑफीस वेळ स. ८.०० ते १२.०० वा.; साय ४.०० ते ८.०० वाजेपर्यंत आहे. संस्थेचा ४० वा वार्षिक अहवाल (सन २०१९-२०२०) कार्यालयात उपलब्ध आहे

जाहिर नोटीस

या नोटीसीद्वारे तमाम लोकांना कळविण्यात येते की, वरील संस्थेतील मुस्लिमनगर नवी नगर को-ऑप. हौ. सोसायटी, ६० फीट रोड, कुंभारवाडा, धारावी, मुंबई - ४०० ०१७ असून या संस्थेत खालील दिलेल्या विवरण व माहितीप्रमाणे खालील मयत सभासदाच्या नावे सदनिका असून त्यांच्या मृत्यूपश्चात त्यांच्या खालील वारसांनी त्यांच्या नावे सदनिका हस्तांतरित करणे व संस्थेचे सभासद करुन घेण्याकरिता संस्थेकडे लेखी अर्ज केला आहे. संस्थेच्या मयत सभासदाने महाराष्ट्र सहकारी संस्थेच्या कायदा १९६० नियम १९६१ व उपविधीतील तरतुदीनुसार संस्थेकडे वारस नोंद केलेली नाही. अर्ज केलेल्या खालील वारसदार व्यतिरिक्त इतर कोणीही मूळ मयत सभासदाचे वारसदार असल्यास अशा व्यक्तींनी सदर जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यापासून ७ दिवसांच्या आत वरील संस्थेच्या कार्यालयात पूर्व सूचना देऊन व वेळ घेऊन प्रत्यक्ष कायदेशीर मूळ कागदपत्र व पुराव्यासह कार्यालयात वेळेत सायंकाळी ४ ते ६ या वेळेत संपर्क साधावा.

मयत सभासद सदनिकाधारक व यांची अर्जदार वारसांची सूची

				• `
अ. क्र.	अनिवासी गाळा क्र.	मयत सभासद	अर्जदार/वारसदार	नाते
۶.	११२ बी	नागप्पा जानप्पा कुंचिकोर्वे	१) सुरेश साग्या कुंचिकोर्वे २) निला सुरेश कुंचिकोर्वे	मुलगा सुन

दिनांक : १७/०३/२०२१ मुस्लिमनगर नवी नगर को-ऑप. हौ. सोसायटी

जाहिर नोटीस

या नोटीसीद्वारे तमाम लोकांना कळिवण्यात येते की, वरील संस्थेतील मुस्लिमनगर नवी नगर को–ऑप. हौ. सोसायटी, ६० फीट रोड, कुंभारवाडा, धारावी, मुंबई - ४०० ०१७ असून या संस्थेत खालील दिलेल्या विवरण व माहितीप्रमाणे खालील मयत सभासदाच्या नावे सदनिका असून त्यांच्या मत्यपश्चात त्यांच्या खालील वारसांनी त्यांच्या नावे सदनिका हस्तांतरित करणे व संस्थेचे सभासद करून घेण्याकरिता संस्थेकडे लेखी अर्ज केला आहे. संस्थेच्या मयत सभासदाने महाराष्ट्र सहकारी संस्थेच्या कायदा १९६० नियम १९६१ व उपविधीतील तरतुदीनुसार संस्थेकडे वारस नोंद केलेली नाही. अर्ज केलेल्या खालील वारसदार व्यतिरिक्त इतर कोणीही मूळ मयत सभासदाचे वारसदार असल्यास अशा व्यक्तींनी सदर जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यापासून ७ दिवसांच्या आत वरील संस्थेच्या कार्यालयात पूर्व सूचना देऊन व वेळ् घेऊन प्रत्यक्ष कायदेशीर मूळ कागदपत्र व पुराव्यासह कार्यालयात वेळेत सायंकाळी ४ ते ६ या वेळेत संपर्क साधावा.

मयत सभासद सदनिकाधारक व यांची अर्जदार वारसांची सूची

अ. क्र.	अनिवासी गाळा क्र.	मयत सभासद	अर्जदार/वारसदार	नाते
१.	५०५ ए		 श्रीनिवास राजन्ना मानेवर रमेश राजन्ना मानेवर अनंतम्मा यंकटप्पा राजम्मा रामुलु सरोजा रविंद्र लक्ष्मी आनंद 	मुलगा मुलगा मुलगी मुलगी मुलगी मुलगी

दिनांक : १७/०३/२०२१ मुस्लिमनगर नवी नगर को-ऑप. हौ. सोसायटी

जाहीर सूचना

आमच्या अशिलांच्या सूचनेअंतर्गत सूर्या गोल्डस् प्रायव्हेट लिमिटेड, कंपनी कायदा १९५६ अंतर्गत स्थापन झालेली प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी, सीआयएन क्र.यू५२३९३एमएच२०००पीटीसी१२८८९०, यांचे नोंदणीकृत कार्यालय: प्लॉट क्र.१५, रोड क्र.१०, एमआयडीसी, तुंगा पॅराडाईज मागे, अंधेरी (पुर्व), मुंबई-४०००९३ यांचे खाली अनुसुचीत मालमत्तेसंदर्भात अधिकाराची आम्ही चौकशी करीत आहोत.

जर कोणा व्यक्तीस सदर मालमत्तेबाबत किंवा कोणताही भाग यावर अधिकार, हक्क, हित, विकास अधिकार, संयुक्त विकास, उप-विकास, प्रकल्प व्यवस्थापन, संयुक्त भागीदारी, एकत्रीकरण किंवा कायद्याच्या न्यायालयाचे कोणताही आदेश किंवा न्याय (अंतरिम किंवा अंतिम) किंवा हकूमनामा, कंत्राट किंवा अन्य इतर प्रकारे कोणताही अधिकार, हक्क, हित, लाभ, दावा किंवा मागणी आणि/किंवा अन्य इतर काही दावा, अधिकार असल्यास पृष्ठचर्थ कागदोपत्री पुराव्यांच्या नोटरीकृत प्रमाणित सत्य प्रतींसह एकत्रित लेखी स्वरुपात खालील स्वाक्षरीकर्त्यांना अर्थात मे. लॉ विंग्ज, ॲडव्होकेटस् व सॉलिसीटर्स, जसवंती अलाईड बिझनेस सेन्टर, ८१३(बी), ए विंग, ८वा मजला, रामचंद्र लेन, काचपाडा, मुंबई-४०००६४ येथे सदर सूचना प्रकाशन तारखेपासून १४ (चौदा) दिवसांत कळवावे, अन्यथा असे सर्व अधिकार, हक्क, हित, लाभ, दावा किंवा मागणी, काही असल्यास, त्याग आणि/किंवा स्थगित केले आहेत असे समजले जाईल.

वर संदर्भीत अनुसुची (मालमत्तेचे वर्णन)

जमीन किंवा मैदानाचे क्षेत्रफळ ११४५ चौ.मी. किंवा ०.११४५ हेक्टर्स, प्लॉट क्र.३६/२, गाव देवगड, तालुका मुळशी, जिल्हा पुणे, नोंदणी उपजिल्हा तालुका मुळशी, जिल्हा पुणे आणि ग्रुप ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत, गाव आंबवणे आणि जिल्हाधिकारी यांचे कार्यालय, जिल्हा पूणे यांच्याकडे सादर सदर अंतिम लेआऊटचा भाग असलेली जमीन, जमीन क्षेत्रफळ हे सरासरी हेक्टर २६६१=२४ एकर आणि अतिरिक्त जमीन, गाव आंबवणे, वसियनखर, पेठशहापूर, कोलवली, नांदगाव, देवघर, पोमगाव व खुंबेरी, तालुका मुळशी आणि जोते क्र.१६७ समाविष्ट भाग (अंतिम लेआऊटनुसार) तसेच त्यावर असलेल्या बंगल्यासह जमीन व मैदानाचे सर्व भाग व खंड.

आज दिनांकीत १५ मार्च, २०२१

सही/-फोरम शाह, भागीदार लॉ विंग्ज ॲडव्होकेटस् व सॉलिसीटर्स

८१३(बी), जसवंती अलाईड बिझनेस सेन्टर, ए विंग, ८वा मजला, रामचंद्र लेन, काचपाडा, मालाड (पश्चिम), मुंबई-४०००६४. ई-मेल: foram.shah@lawwings.in

परिशिष्ट १६ उपविधी क्र.३५ अन्वये

या नोटीसद्वारे आम जनतेस कळविण्यात येते की, आमचे अशील **डॉ. अशोक गोविंदराव पै** यांनी शॉप झोन प्रिमायसेस को-ऑप. सोसा. लि. ज्याचा पत्ता एम.जी. रोड, बँक ऑफ इंडियाजवळ, घाटकोपर (पश्चिम), मुंबई-४०००८६ आणि भाग दाखला क्र.१०४ दिनांक १३.०१.२०१३ विभिन्न क्र.२०६१ ते २०८० धारक ऑफिस/युनिट क्र.१८, सहावा मजलाकरिता रु.५०/- चे प्रत्येकी वीस पुर्णदेय शेअर्स धारण केलेले पुर्वीचे सभासदांचे नांवावरून त्यांनी त्यांचे नांवे सभासदत्व हस्तांतरणाकरिता सोसायटीकडे अर्ज केला आहे.

सोसायटी/आमचे अशील याद्वारे सोसायटीच्या भांडवल/मिळकतीमधील सदर शेअर्स आणि हितसंबंधाचे हस्तांतरण होण्यास वारस किंवा वारसदार किंवा इतर दावेदार/आक्षेपदार किंवा अन्य दावेदारी/आक्षेप घेणारे यांच्याकडून दावे किंवा आक्षेप असल्यास ते सदर सूचनेच्या प्रसिद्धीपासून चौदा (१४) दिवसांत सोसायटीच्या भांडवल/मिळकतीमधील पुर्वीचे सभासदांचे नांवे असलेले शेअर्स व हितसंबंधाच्या हस्तांतरणासाठी त्यांच्या/तिच्या/त्यांच्या दाव्या/आक्षेपांच्या पृष्ठ्यर्थ अशी कागदपत्रे आणि अन्य पुराव्यांच्या प्रतींसह मागवित आहे. वर दिलेल्या मुदतीत जर . दावे/आक्षेप प्राप्त झाले नाहीत तर सोसायटीच्या उपविधीतील तरतुदीमधील दिलेल्या मार्गाने सोसायटीच्या भांडवल/मिळकतीमधील पुर्वीचे सभासदांचे शेअर्स व हितसंबंधाचे हस्तांतरण करण्यास सोसायटी मोकळी असेल, जर सोसायटीच्या भांडवल/मिळकतीमधील पुर्वीचे सभासदाच्य शेअर्स आणि हितसंबंधाच्या हस्तांतरणास काही दावे/आक्षेप सोसायटीने वा आम्ही प्राप्त केले तर सोसायटीच्या उपविधीतील तरतुदीनुसार त्यावर सोसायटी कार्यवाही करेल. सोसायटी नोंदणीकृत उपविधीची प्रत/दावेदार आक्षेपकांद्वारे निरिक्षणासाठी सोसायटी कार्यालय सोसायटीचे सन्मा. सचिव दु.१२.०० आणि सायं.५.०० च्या मध्ये सदर सूचना प्रसिद्धीच्या तारखेपासून सोमवार ते शनिवार तिचा कालावधी समाप्तीच्या तारखेपर्यंत उपलब्ध आहे.

जैलेज पी. पानसरे

ॲडव्होकेट हायकोर्ट मुंबई युनिट नं.१७, दुसरा मजला, शॉप झोन, बँक ऑफ इंडियाजवळ, एम.जी. रोड, घाटकोपर (प.), मुंबई-४०००८६

बालु फॉर्ज इंडस्ट्रीज लिमिटेड (पुर्वीची अमेझ एन्टरटेक लिमिटेड)

कॉपरिट ओळख क्रमांक: एल२९१००एमएच१९८९पीएलसी२५५९३३ नोंदणीकृत कार्यालय: १५६, १ला मजला, रघुलीला मेगा मॉल, पोईसर जिमखाना रोड, कांदिवली (प.), मुंबई-४०००६७. दूर.: ८६५५०७५५७८

विशेष सर्वसाधारण सभा व ई-व्होटींग माहितीची सूचना याद्वारे सूचना देण्यात येते की, **बालु फॉर्ज इंडस्ट्रीज लिमिटेड**च्या सदस्यांची विशेष सर्वसाधारण सभा बुधवार

७ एप्रिल, २०२१ रोजी स.९.३०वा. क्रिश कॉटेज, सी-१०१/२०१, मानस इमारत, सेन्ट लॉरेन्स हायस्कुलजवळ देवीदास लेन, बोरिवली (प.), मुंबई-४०००९२ येथे खालील विषयावर विमर्ष करण्याकरिता होणार आहे.

कंपनीचे अधिकृत भागभांडवलात वाढ करणे. कंपनीचे संघटना अहवालात फेरबदल

लिमिटेड (एनएसडीएल) ची सेवा नियक्त केली आहे.

ठिकाण: मूंबई

दिनांक: १७.०३.२०२१

ना-प्रवर्तकांना (सार्वजनिक श्रेणी) प्राथमिक वाटपतत्त्वावर समभागांचे वितरण

भारतीय प्रतिभूती व विनिमय मंडळ (असुचिबद्धता निवारण व अहवाल आवश्यकता) अधिनियम, २०१५ चे नियम ४४, सुधारितप्रमाणे आणि कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १०८, कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) अधिनियम २०९४ चे नियम २०, पर्यायी कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) सुधारित अधिनियम २०९५ (सुधारित अधिनियम (ईओजीएम) नियोजित ठरावांवर मत देण्यासाठी सदस्यांना सविधा दिलेली आहे. ईओजीएमच्या ठिकाणाव्यतिरिक्त ... अन्य ठिकाणाहून विद्युत मतदान प्रणालीने सदस्यांना मत देण्याच्या सुविधेसाठी नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी

संचालक मंडळाने तपासनीस म्हणून श्री. जयमीन मोदी (एसीएस–४४२४८, सीपी–१६९४८) मालक मे. जयमीन मोदी ॲण्ड कंपनी, कार्यरत कंपनी सचिव, भाईंदर (पुर्व)-ठाणे यांची नियुक्ती केली आहे.

. ज्या सदस्यांची नावे १२ मार्च, २०२१ रोजी सदस्य नोंद पुस्तकात/डिपॉझिटरीकडे नोंद आहेत त्यांना सूचना पाठविण्यात आली आहे आणि त्या तारखेनुसार सदस्यांचे मतदान अधिकार निश्चित केले जातील. ज्या भागधारकांनी त्यांचे ई-मेल अद्यायावत केलेले नाही त्यांना विनंती आहे की, त्यांनी खाली नमृद आरटीएची

वेबसाईट अर्थात http://www.skylinerta.com/Email.Reg.php वर लवकरात लवकर त्यांचे ई-मेल अद्यायावत करावे. . मतदान कालावधी खालीलप्रमाणे

रविवार, ४ एप्रिल, २०२१ ६ एप्रिल, २०२१ रोजी सायं.५.००वा. नंतर एनएसडीएलद्वारे रिमोट ई-वोटिंग बंद केले जाईल व मान्य

टपाल मतदानाचा निकाल ८ एप्रिल, २०२१ रोजी घोषित केला जाईल आणि कंपनीच्या व स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई लिमिटेड) च्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध केले जाईल.

. ई-वोटिंगकरिता सूचनेत नमुद सुचनांचे लक्षपुर्वक वाचन करून पालन करावे

. ई-वोटिंगबाबत काही प्रश्न किंवा तक्रारी असल्यास www.evoting.nsdl.com च्या डाऊनलोड सेक्शनवर उपलब्ध भागधारकांकरिताचे ई-वोटिंग युजर मॅन्युअल व फ्रिक्केन्टली आस्क्ड केश्चन्स (एफएक्यु)चा संदर्भ घ्यावा किंवा संपर्क टोल फ्री क्र.१८००-२२२-९९० किंवा evoting@nsdl.co.in ई-मेल करावा. तसेच विद्युत मतदानाबाबत कंपनीच्या सदस्यांना काही प्रश्न किंवा तक्रारी असल्यास त्यांनी कंपनी/कंपनीचे निबंधक व भागहस्तांतर प्रतिनिधी स्कायलाईन फायनान्शियल सर्विसेस प्रा.लि. यांना pravin.cm@skylinerta.com वर किंवा Mumbai@skylinerta.com वर ई-मेल करावा.

ालु फॉर्ज इंडस्ट्रीज लिमिटेड (अमेझ एन्टरटेक लिमिटेड म्हणून ज्ञात) संपर्क व्यक्ती श्री. आकाश जोशी संपर्क व्यक्ती श्रीमती पल्लवी म्हात्रे पद: कंपनी सचिव व सक्षम अधिकारी पद: सहाय्यक व्यवस्थापिका, एनएसडीएल ई-मेल:evoting@nsdl.co.in ई-मेल:compliance@baluindustries.com बालु फॉर्ज इंडस्ट्रीज लिमिटेडकरिता

(पर्वीची अमेझ एन्टरटेक लिमिटेड) जसपालसिंग प्रेहलादसिंग चांडोक व्यवस्थापकीय संचालक डीआयएन:००८१३२१८

समभागधारकांचे अंतिम निकास प्रस्तावाची जाहीर अधिसूचना हिंद सिक्युरिटीज ॲण्ड क्रेडिटस् लिमिटेड नोंदणीकृत कार्यालय: डी-१६, तळमजला, उद्योग नगर, नांग्लोई, दिल्ली-११००४१. संपर्क:+९१-९८९९४२५५७५, ई-मेल: supersecurities1993@gmail.com, वेबसाईट: www.supersecurities.in

कंपनीचे समभाग यापुर्वीच सर्व स्टॉक एक्सचेजेसमधुन असुचिबद्ध करण्यात आले आहेत आणि म्हणून यापुढे कोणताही व्यापार नाही. सदर प्रस्ताव ही निकासाकरिता अंतिम संधी आहे. कंपनीचे भागधारक म्हणून कृपया नोंद असावी की, असुचिबद्धता केल्याने तुम्ही स्टॉक एक्सचेजेसह कंपनीचे शेअर्स विक्री करण्यास पात्र नाहीत आणि म्हणून तुमचे शेअर्स निवारण करण्यास अशक्य

हिंद सिक्यरिटीज ॲण्ड क्रेडिटस लिमिटेड (कंपनी) च्या सर्व सार्वजनिक उर्वरित भागधारकांना येथे सचित करण्यात येत आहे की. असचिबद्ध प्रस्ताव यशस्वीपणे पर्ण केल्यानंतर जे भारतीय प्रतिभृती व विनिमय मंडळ (समभागांचे असचिबद्धता) अधिनियम २००९ (अधिनियम) च्या लाग तरतदी व प्रकरण ७ आणि अन्य इतर सविधानसार जे प्रवर्तक/प्राप्तकर्ता श्री परवीन गमा व श्री प्रतिक गमा यांनी हिंद सिक्युरिटीज ॲण्ड क्रेडिटस् लिमिटेडच्या सार्वजनिक भागधारकांना रु.१३.०० (रुपये तेरा फक्त) निकास मूल्य प्रस्तावित केले आहे.

बीएसई लिमिटेडने त्यांचे पत्रानुसार संदर्भ क्र.२०२१०३०१-१९ दिनांक १ मार्च, २०२१ धारक संदर्भासह १६ मार्च, २०२१ पासून केंद्रामधुन कंपनीचे शेअर्स असुचिबद्ध केले आहेत.

सेबी (समभागांचे असुचीबद्धता) अधिनियम २००९ नुसार आणि त्यातील सुधारणासह बीएसई लिमिटेडने विहित केले आहे की, प्राप्तकर्ता यांनी कंपनीचे उर्वरित सार्वजनिक भागधारकांना निकास पर्याय द्यावा, कंपनीचे सार्वजनिक भागधारक हे असचीबद्धता प्रस्तावात सहभागी होऊ न शकले किंवा उपरोक्त प्रक्रियेत त्यांचे शेअर्स अयशस्वी निविदेत केल्यास आता त्यांना सेबी (समभागांची असचिबद्धता) अधिनियम, २००९ व सधारणांसह आवश्यक तरतदीच्या पर्ततेनसार १७ मार्च, २०२१ ते १६ मार्च २०२२ अर्थात १ वर्षाच्या कालावधीकरिता रु १३ ०० (रुपये तेरा फक्त) प्रती समभाग निकास मल्याने प्रवर्तक/प्राप्तकर्ता यांना त्यांचे शेअर्स विक्री करण्याची अंतिम संधी देण्यात आली

स्विकृती प्रपत्र यासह आवश्यक जोडपत्रे उपरोक्त प्रक्रियेत त्यांचे शेअर्ससह अयशस्वीपणे निविदेत करणारे किंवा सुचिबद्धता प्रक्रियेत सहभागी होण्यास पात्र न ठरलेले असे उर्वरित सर्व सार्वजनिक भागधारकांना प्राप्तकर्त्याकडे निकास मुल्याने त्यांचे शेअर्स देण्यासाठी सार्वजनिक भागधारकांना

आवश्यक असल्याप्रमाणे नियामक मान्यतेनुसार प्राप्तकर्ते हे अशा स्विकृतीपासून १५ दिवसांत सर्व आवश्यक दस्तावेज पुर्ण करून प्राप्तकर्त्यांना त्यांच्या शेअर्स वैधपणे देणाऱ्या भागधारकांना लागू रक्कम करण्यास इच्छक आहेत.

उर्वरित समभागांकरिता निविदा प्रक्रिया

. देनांक: १६.०३.२०२१

. वास्तविक स्वरुपात भागधारणा असणारे भागधारक: ज्या समभागधारकांकडे वास्तविक स्वरुपात समभाग आहेत आणि त्यांचे शेअर्स स्विकृती प्रपत्र व पोहोचपावती पुर्णपणे भरून मुळ स्वरुपातील वास्तविक भागप्रमाणपत्र जोडून रिक्त हस्तांतर करारनामा स्वाक्षरी करून आवश्यक पडताळणीसह, लागू असल्यास, कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात-डी-१६, तळमजला, उद्योग नगर, नांग्लोई दिल्ली-११००४१ येथे पाठवावे.

. डिमॅट स्वरुपात भागधारणा असणारे भागधारक: डिमॅट स्वरुपात भागधारणा असणारे भागधारक व लाभार्थी मालक यांनी स्विकृती प्रपत्र व पोहोचपावती पुर्णपणे भरून आवश्यक प्रमाणांसह, लागू असल्यास, तसेच ऑफ मार्केट मोडमधील पोहोच सूचनांची छायाप्रतीसह किंवा ठेवीदार सहभागीदार (डीपी) द्वारे पोहोच पावतीसह ऑफ मार्केट मोडमध्ये पोहोच माहितीच्या पावती खालील खात्याच्या नावे भरून या उद्देशाकरिता प्राप्तकर्ता, श्री. परवीन गुप्ता/श्री. प्रतिक गुप्ता, द्वारा हिंद सिक्युरिटीज ॲण्ड क्रेडिटस् लिमिटेड, यांचे नोंदणीकृत कार्यालय-डी-१६, तळमजला,

उद्योग नगर, नांग्लोई, दिल्ली-११००४१ येथे पाठवावेत. ____ परवीन गुप्ता ठेवीदार सहभागीदाराचे नाव ठेवीदार सहभागीदाराचे ओळख क्रमांक १९१०१ अशिलाचे ओळख क्रमांक १२०१९१०१०२२७१५३८ ठेवीदाराचे नाव एसएमसी ग्लोबल सिक्युरिटीज लिमिटेड-नवी दिल्ली सेन्ट्रल डिपॉझिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल)

नेकास प्रस्तावाबाबत काही प्रश्न असल्यास कृपया कंपनीकडे संपर्क करावा. भागधारकांना विनंती आहे की, त्यांनी त्यांचे निविदा किंवा संपूर्ण दस्तावेज कंपनीकडे वर नमुद पोहोच पद्धतीनुसार खालील पत्त्यावर सोमवार ते शक्रवार. स.१०.०० ते सायं.५.०० दरम्यान पाठवावेत

_	3							
अ.	पत्ता	संपर्क	पोहोच	दुरध्वनी	फॅक्स			
豖.		व्यक्ती	प्रकार	क्रमांक	क्रमांक			
१	डी-१६, तळमजला,	पारुल चढा	रजि. पोस्ट	+९१-	एन.ए.			
	उद्योग नगर, नांग्लोई,	(कंपनी सचिव व	/स्पीड पोस्ट	९८९९४२५५७५				
	दिल्ली-११००४१.	सक्षम अधिकारी)	/कुरियर/हस्ते					
			पोहोच					

हिंद सिक्युरिटीज ॲण्ड क्रेडिटस् लिमिटेडकरिता

दिनांक: १६.०३.२०२१ कंपनी सचिव व सक्षम अधिकारी

जाहीर सूचना

लिला मधुभाई पटेल या श्री विठ्ठल नगर एसआरए हो-ऑपरेंटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड. पत्ता वीपाडा, बोरिवली (पुर्व), मुंबई-४०००६६ या सोसायटीच्या सदस्या होत्या आणि सोसायटीच्या इमारत क.२ मधील, बी विंगमधील, फ्लॅट/टेनामेन्ट क्र.५०८ व्या धारक होत्या. यांचे कोणतेही वारसदार न नेमता 0९.0४.२0१४ रोजी निधन झाले.

सोसायटी याव्दारे, सोसायटीच्या भांडवल

मेळकतीमधील. मयत सभासदाच्या सदर शेअर्स व हतसंबंधाचे हस्तांतरण होण्यास वारस किंवा अन्य द्मवेदारी/आक्षेप घेणारे यांच्याकडून काही दावे किंवा आक्षेप असल्यास ते ह्या सचनेच्या प्रसिध्दीपासन दिवसांत सोसायटीच्या भांडवल/मिळकतीमधील मय त्याच्या/तिच्या/त्यांच्या दावा/ आक्षेपांच्या पुष्ठ्यर्थ अशी कागदपत्रे आणि अन्य पुरावाच्या प्रतींसह मागविण्य येत आहेत. वर दिलेल्या मुद्तीत जर काही दावे/आक्षे^ग प्राप्त झाले नाहीत. तर मयत सभासदाच्या सोसायटीच्य गांडवल/मिळकतीमधील शेअर्स व हितसंबंधाश सोसायटी उपविधीतील तरतदींमधील दिलेल्या मार्गाने यवहार करण्यास सोसायटी मोकळी असेल. ज सोसायटीच्या भांडवल/मिळकतीमधील मय नभासदाच्या शेअर्स व हितसंबंधाच्या हस्तातरणास कार्ह दावे/आक्षेप सोसायटीने प्राप्त केले तर. सोसायटीच्य उपविधीतील तरतुर्दीनुसार त्यावर सोसायटी कार्यवाह करेल. सोसायटींच्या नोंदणीकृत उपविधींची प्रत दावेदार/ भाक्षेपकाव्दारे निरीक्षणाकरिता सोसायटीचे कार्यालय. प्रोसायटीचे सचिव यांच्याकडे सदर सुचना प्रसिध्दीच्य तारखेपासून कालावधी समाप्तीच्या तारखेपर्यंत सर्व कामकाजाच्या दिवशी स.१०.०० ते रात्रौ.८.०० पर्यंत उपलब्ध आहेत.

श्री विट्ठल नगर (एसआरए) को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड

दिनांक: १६.०३.२०२१

नमुना क्र.आयएनसी-२५ए पब्लिक कंपनीचे प्रायव्हेट कंपनीमध्ये रुपांतरणासाठी वृत्तपत्रात

प्रकाशित करावयाची जाहिरात क्षेत्रिय संचालक, सहकार मंत्रालय, पश्चिम क्षेत्र यांच्या समक्ष कंपनी कायदा २०१३, कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १४ आणि कंपनी (स्थापना) अधिनियम २०१४ चे नियम ४१ प्रकरणात

मे. मोनोमेर केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, नोंदणीकृत कार्यालय: कमर्शियल ऑफिस प्रिमायसेस क्र.०६, ए विंग, १ला मजला, लोकमान्य को-ऑप.हौ.सो., वीर सावरकर मार्ग, ठाणे-४००६०२, **अर्जदार**.

सर्वसामान्य जनतेस येथे सूचना देण्यात येत आहे की, ८ फेब्रुवारी, २०२१ रोजी

झालेल्या विशेष सर्वसाधारण सभेत मंजूर विशेष ठरावानुसार कंपनीचे प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीमध्ये रुपांतरणासाठी कंपनीदारे केंद्र शासन यांच्याकडे कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १४ सहवाचिता त्यातील नियमाअंतर्गत अर्ज करण्याचे योजिले आहे. कोणा व्यक्तिच्या हितास कंपनीचे नियोजित स्थिती बदलामळे काही बाधा येत असल्यास त्यांनी त्यांच्या हिताचे स्वरूप व विरोधाचे कारण नमूद केलेल्या प्रतिज्ञापत्राद्वारे त्यांचे आक्षेप रजि. पोस्टाने सदर सूचना प्रकाशन तारखेपासून १४ दिवसांच्या आत क्षेत्रिय संचालक (एव्हरेस्ट, ५वा मजला, १००, मरीन ड्राईव्ह, मुंबई-४००००२) यांच्या कार्यालयात पाठवावी तसेच एक प्रत अर्जदार कंपनीला त्यांच्या खाली नमुद नोंदणीकृत

कमर्शियल ऑफिस प्रिमायसेस क्र.०६, ए विंग, १ला मजला, लोकमान्य को-ऑप. हौ.सो., वीर सावरकर मार्ग, ठाणे-४००६०२.

अर्जदारांच्या वतीने व करिता मोनोमेर केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड

श्री. विजय विठ्ठल निकते

डीआयएन:00३७३९३७ नोंदणीकृत कार्यालयाचा संपुर्ण पत्ता:

कमर्शियल ऑफिस प्रिमायसेस क्र.०६, ए विंग, १ला मजला, लोकमान्य को-ऑप.हौ.सो., वीर सावरकर मार्ग, ठाणे-४००६०२.

दिनांक: १५ मार्च, २०२१

जाहीर सूचना

माटुंगा विभागाचा सीटीएस क्र.२०९/१०, प्लॉट क्र.२६५, दादर माटुंगा इस्टेट, वॉर्ड एफ-एन, लखमशीनापू रोड, जिमखाना रोड व देवधर रोड, मुंबई-४०००१९ धारक मालमत्तेवरील इमारत. बाळकृष्ण निवास म्हणून ज्ञात इमारतीसाठी डीसीपीआर २०३४, कलम ३३(७) च्या लाभाअर्तगत पर्नविकासाकरिता नियोजित आहे. गृहनिर्माण विभागातील महाराष्ट्र शासनाच्या निर्देशानानुसार उपरोक्त सदर मालमत्तेचे वहिवाटदार/भाडेकरूंची यादी खालीलप्रमाणे प्रकाशित करण्यात येत आहे.

+	आ. 新.	भाडेकरूंचे नाव	वहिवाटदाराचे नाव	मजला	दुकान /खोली	वापर नि./अनि
1	<i>१</i>	स्वर्गीय महाराणी आर. तिवारी	रमाकबल आर. तिवारी	तळ	१	अनि
₹	2	माटुंगा परस्पर सहकारी मंडळ	माटुंगा परस्पर सहकारी मंडळ	तळ	२,३,४ व ५	अनि
7	3	श्रीमती पुष्पा जी. सदारंगानी	श्रीमती पुष्पा जी. सदारंगानी	तळ	ε	अनि
₹ 5	४	मितेश डी. पारेख, विनेश डी. पारेख	मितेश डी. पारेख, विनेश डी. पारेख	तळ	9	अनि
f	Q	दी सिटी को-ऑप बँक लि., मुंबई	दी सिटी को-ऑप बँक लि., मुंबई	तळ	ሪ	अनि
4	ξ	गुलाबचंद मथुरा	गुलाबचंद मथुरा	तळ	9	अनि
1	9	अमृतबेन रमेशचंद्र गाला निरुमती नटवरलाल सोनी	अमृतबेन रमेशचंद्र गाला	तळ	80	अनि अनि
,	ر ا	विठ्ठल लच्छु शेट्टी	स्थगिती स्थगिती	तळ तळ	११ १२ व २२	आन अनि
		राजेंद्र पी. बंगेरा	राजेंद्र पी. बंगेरा	तळ	पान स्टॉल	अनि
1 1		व्ही.एस. गायतोंडे	स्थगिती	तळ	१३	अनि
1	१२	द्वारकाबाई गणेश नाईक	द्वारकादास ट्रस्ट	तळ	१४	अनि
+	१३	स्वर्गीय शबन मोहम्मद रहिमपूर	मोहम्मद अली एस. रहिमपूर व	तळ	१५,१६,१७	अनि
		, , , , ,	मोहम्मद काझीम एस. रहिमपूर		१८ व २१	
4	१४	मोहम्मद अली एस. रहिमपूर व मोहम्मद काझीम एस. रहिमपूर	मोहम्मद अली एस. रहिमपूर व मोहम्मद काझीम एस. रहिमपूर	तळ	१९ व २०	अनि
न	१५	नंदिकशोर शिरकूट	लक्ष्मीनाथ राममुर्ती उपाध्याय	तळ	23	नि
1	-	भाग्य मधु	संभाजी लक्ष्मण मेटकर	तळ	28	नि
3	-	सत्यनारायण एन. अगरवाल	दाऊदयाल सत्यनारायण अगरवाल	तळ	२५	अनि
П	१८	स्वर्गीय श्री. रामप्यारे तिवारी	सुभाषचंद्र तिवारी, राजेशकुमार तिवारी व	तळ	आर/यु/एस	अनि
·			शिलादेवी सुरेशकुमार तिवारी			
Т	१९	कौशांग रमेशचंद्र सोनी	कौशांग रमेशचंद्र कुकाडीया	१ला	8	नि
┨	<u>_</u>	रमेशचंद्र एम. सोनी	रमेशचंद्र मोहनलाल कुकाडीया	१ला	2	नि
4		शशिकांत पुरुषोत्तमदास सोनी रश्मीकांत पुरुषोत्तमदास सोनी	स्थगिती रक्ष्मीकांत पुरुषोत्तमदास सोनी	१ला १ला	¥ 8	नि नि
		ममता कौशांग सोनी	ममता कौशांग सोनी	रला १ला	<u>ه</u>	नि
1		स्वर्गीय विजय मुकुंद कामत	स्वर्गीय श्रीमती विजय कामत	१ला	ξ	नि
π		समीर विजय कामत	समीर विजय कामत	१ला	9	नि
()	२५	महेश नारायण देशपांडे	महेश नारायण देशपांडे	१ला	ć	नि
- क		भुपेंद्र नाथालाल कोठारी	भुपेंद्र नाथालाल कोठारी	१ला	٩	नि
क		जयंत धनदेश शाह	जयंत धनदेश शाह	१ला	80	नि
૮		कुंदनलक्ष्मी रमेशचंद्र सोनी	कुंदनलक्ष्मी रमेशचंद्र सोनी	१ला	११	नि
		जयंतीलाल जिवराज पटेल	जयंतीलाल जिवराज पटेल	१ला	१२	नि
		कृष्णा स्वामी वेणुगोपाळ कुंवरजी गोपाळजी	कृष्णा स्वामी वेणुगोपाळ रविंद्र कुंवरजी शाह	१ला	83	नि नि
		शिला जयंतीलाल पटेल	शिला जयंतीलाल पटेल	१ला १ला	१४ १५	नि
		हेमंत चिमणलाल संघवी	हेमंत चिमणलाल संघवी	१ला	१६	नि
		श्रीमती एलिस देवेंद्र शेठीया	स्थगिती	१ला	80	नि
ग	_	`	मधुसूदन प्रभुदास मेहता	१ला	१८	नि
ह		ज्योत्स्ना सुरेंद्र शाह	ज्योत्स्ना सुरेंद्र शाह	१ला	१९	नि
य		कुणाल सुरेंद्र शाह	कुणाल सुरेंद्र शाह	१ला	٦0	नि
थे		स्वर्गीय फिकरा नारायण बोरूडे	स्थगिती	१ला	२१	नि
व गी	_	पिनाकीन सुरेंद्र शाह	पिनाकीन सुरेंद्र शाह	१ला	22	नि नि
व	88	भारती जगन्नाथ गगलानी रमेश पी. पाटकर	भारती जगन्नाथ गगलानी रमेश पुंडलीक पाटकर व यतीन विठ्ठल निंबरे	श्ला	२३ २४	ान नि
ग रा		श्रीमती प्रतिभा डी. हडकर	श्रीमती प्रतिभा डी. हडकर	२रा २रा	48 24	नि
	_	सतिश रतनशी प्रसाद	सतिश रतनशी प्रसाद	श्रा	२६ व २७	नि
ह	_	राधा सुब्रमणी अय्यर	राधा सुब्रमणी अय्यर	श्रा	२८	नि
ई	_	NN N A N A	देवेंद्र वेलजी सेटीया	२रा	२९	नि
स		भानुमती हिम्मतलाल सोनी	भानुमती हिम्मतलाल सोनी	२रा	१/ए	नि
त्रे गि	_	बकुला पियुश जसानी व पियुश आर. जसानी	स्थगिती	२रा	३ 0	नि
१	-	व्ही.व्ही. शिरोडकर	रंजना विजयकुमार शिरोडकर	२रा	3 ?	नि
ग ति	-	एस.पी. भंडारकर	सदाशिव रामकृष्ण भंडारकर	श्रा	32	नि नि
"		रामचंद्र बाळकृष्ण बोन्नी सतिश प्रसाद	रामचंद्र बाळकृष्ण अय्यर बोन्नी सतिश प्रसाद	२रा २रा	33 38	ान नि
त		हरिश नविनचंद्र खबारीया	हरिश नविनचंद्र खबारीया	ररा २रा	4 8 3 Q	ान नि
क ग		बाळकृष्ण हिम्मतलाल सोनी	बाळकृष्ण हिम्मतलाल सोनी	श्रा	३६ए	नि
"		महासुख हिम्मतलाल सोनी	महासुख हिम्मतलाल सोनी	२रा	३६बी	नि
र्व	५३	कुमारी चार्मी सतिश पसाद	कुमारी चार्मी सतिश पसाद	श्रा	30	नि
गू	५४	सुनिता सुनिलकुमार उपाध्याय	सुनिता सुनिलकुमार उपाध्याय	श्रा	३८	नि
		हिरामनी उमानाथ उपाध्याय	हिरामनी उमानाथ उपाध्याय	२रा	39	नि
त	-	स्वर्गीय ताराबेन महिपतराय सोनी	अनिला महिपतराय सोनी	२रा	80	नि
ल इ,	_	स्वर्गीय महाराणी रामिकशोर तिवारी	रमाकबल आर. तिवारी	२रा	४१	नि
, 4,	-	लक्ष्मीचंद उमरशी विरा	स्थगिती	श्स	४२	नि नि
1		मोहन अमृतराव देशमुख प्रकाश खिमजी थाडेश्वर	मोहन अमृतराव देशमुख प्रकाश खिमजी सोनी	२रा २रा	88	ान नि
क इ,		भानुमती हिम्मतलाल सोनी	भानुमती हिम्मतलाल सोनी	३रा	⁸⁸ १/ए	नि
र	_	हेमाली बाळकृष्ण सोनी	हेमाली बाळकृष्ण सोनी	३रा	१/बी	नि
ft T,		कोकिला सी. शाह व चैतन्य एस. शाह	कोकिला सी. शाह व चैतन्य एस. शाह	३रा	2	नि
τ,	-	सुधीर छगनलाल मेहता	सुधीर छगनलाल मेहता	३रा	3	नि
4	_	स्थगिती	स्थगिती	टेरेस	१ए	नि
\dashv	(अ	-करपात्र संरचना) वॉर्ड क्र.एफएन-७०६				
+	अ.	भाडेकरूंचे नाव	बहिवाटदाराचे नाव	मजला	दुकान	वापर

१ | भानुमती हिम्मतलाल सोनी भानमती हिम्मतलाल सोनी

f		(अ-करपात्र सरचना) वांड क्रे.एफएन-७०६१(१/२)					
₹		आ. 新 .	भाडेकरूंचे नाव	बहिवाटदाराचे नाव	मजला	ا دف	वापर नि./अ
		२	श्री दुग्धालय, मालक सत्यनारायण	दाऊदयाल सत्यनारायण अगरवाल	तळ	तळ २	अनि
+			एन. अगरवाल				
-	Ш	<u> </u>	ma malala admila and filar ad-	ਰ ਗਤੀਕਾਰਿਨਿਕ ਰਹਾ ਕਾਨੀ ਗੱਤਾ ਕਰਿਕ ਤਾਲੇ	an uma	حبنك عاصب	216127

मुद यादोतील कोणीही व्यक्ती किवा वरील यादीव्यतिरिक्त इतर व्यक्ती यांना वरील जागेविरोधात त्यांचे वहिवाट अधिकार, हक्क व हित किंवा दावा असल्यास त्यांनी त्यांचे आक्षेप खालील ठिकाणी सदर सूचना प्रकाशन तारखेपासून ७ दिवसांत सादर करावेत.

कार्यकारी अभियंता

मे. ओरिएन्टल कॉन्ट्रॅक्टर प्रा.लि. संभवा चेंबर, ४था मजला, २०, सर पी.एम. रोड, एफ-एन, मुं.इ.दु. व पु.मंडळ

शिंदेवाडी, दादर, मुंबई. फोर्ट, मुंबई-४००००१.

THIS DOCUMENT IS IMPORTANT AND REQUIRES YOUR IMMEDIATE ATTENTION

OFFER OPENS ON - 17.03.2021 OFFER CLOSES ON - 16.03.2022

FORM OF ACCEPTANCE CUM ACKNOWLEDGEMENT

To

The Acquirer
Mr. Parveen Gupta/Mr. Parteek Gupta
C/o Hind Securities and Credits Limited (Delisting Offer)
Address: D-16, Ground Floor, Udyog Nagar, Nangloi, Delhi-110041

Sir(s)

SUBJECT: FINAL EXIT FACILITY TO THE REMAINING PUBLIC SHAREHOLDERS OF HIND SECURITIES AND CREDITS LIMITED ("THE COMPANY") TO TENDER THEIR SHARES IN FAVOUR OF MR. PARVEEN GUPTA AND MR. PARTEEK GUPTA (HEREINAFTER COLLECTIVELY REFERRED TO AS "THE ACQUIRER(S)") AT PRICE OF RS. 13/- PER EQUITY SHARE.

In respect of the Exit Facility available up to One Year from 17.03.2021 to 16.03.2022, I/We hereby state the following:

THE SHARES OF THE COMPANY HAVE ALREADY BEEN DELISTED FROM ALL THE STOCK EXCHANGE AND HENCE ARE NO LONGER TRADED. THIS OFFER IS TO PROVIDE YOU WITH A FINAL OPPORTUNITY TO EXIT.

AS A SHAREHOLDER OF THE COMPANY PLEASE NOTE THAT DUE TO DELISTING YOU SHALL NO LONGER BE ABLE TO SELL THE SHARES OF THE COMPANY OVER THE STOCK EXCHANGES AND THEREFORE IT WOULD BE DIFFICULT TO DISPOSE OFF YOUR SHARES.

All the remaining Public Shareholders of Hind Securities and Credits Limited ("the Company") are hereby informed that subsequent to the successful completion of delisting offer, which were concluded in accordance with Chapter VII and other applicable provisions of the Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009 ("the Regulations"), and subsequent amendments thereto, wherein the exit offer was made by the Promoter/Acquirer Mr. Parveen Gupta and Mr. Parteek Gupta at the exit price of Rs. 13/- (Rupees Thirteen Only) to the public shareholders of Hind Securities and Credits Limited.

BSE Limited vide its notice bearing reference no. 20210301-19 dated 01st March, 2021 have delisted the Company from the exchange with effect from 16th March, 2021.

As per SEBI (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009 and subsequent amendments thereto, the BSE Limited have stipulated that the acquirer shall provide an exit option to the remaining Public Shareholders of the Company for a period of one year. The Public Shareholders of the Company who did not or were unable to participate in the delisting offer or who unsuccessfully tendered their shares in the aforementioned processes, now have a last and final opportunity to sell their shares to the promoter/acquirer at the exit price of Rs 13/- (Rupees Thirteen Only) per share commencing from 17th

March, 2021 to 16th March, 2022 i.e. for a period of One Year in Compliance with relevant provisions of SEBI (Delisting of equity shares) Regulations, 2009 and subsequent amendments thereto.

Subject to Regulatory Approval(s) if any, as may be required, the acquirer intends to dispatch payment to the shareholder(s) who will validly tender their shares to the Acquirer with all the necessary documentation, within a period of 15 days of receipt of valid applications.

PART A - FOR SHARES HELD IN PHYSICAL FORM:

I/We am/are registered holder of following Equity Shares in the physical form. I/We accept the Final Exit Facility provided by 'the Acquirer' and to avail the same, are enclosing the original share certificate(s) and duly signed & witnessed valid transfer deed(s) in respect of the said Equity Shares:

(Use separate Form for different Folios)

FOLIO NO.	CERTIFICATE NO.	DISTINCTIVE NOS.		NO. OF SHARES
		FROM	ТО	
NO. OF SHARE CERTIFICATES ATTACHED:		TOTAL NUMBER OF SHARES:		

(In case of insufficient space, please use an additional sheet and authenticate the same)

I/We confirm that, I/We am/are the registered holders of the equity shares of Hind Securities and Credits Limited, which are being tendered herewith by me/us under the Final Exit Facility and the said equity shares are free from liens, charges & encumbrances of any kind whatsoever.

I/We note and understand that the Original Share Certificate(s) and valid Share Transfer Deed(s) will be held in trust for me/us by 'the Acquirer' until the time; they make payment of the purchase consideration.

I/We also note and understand that 'the Acquirer' will pay the purchases consideration to the extent possible within 15 days from the date of receipt of all duly completed documents/forms (or such longer period as may be required to obtain the relevant regulatory approvals, if any).

PART B - FOR SHARES HELD IN DEMATERIALIZED FORM:

I/We hold the following Equity Shares in Dematerialized Form. I/We accept the Exit Facility provided by 'the Acquirers' and enclose a counterfoil(s)/photocopy of the Delivery Instruction(s) duly acknowledged by my DP in respect of said Equity Shares as detailed below:

DP NAME	DP ID	CLIENT ID	NAME OF BENEFICIARY	NO. OF SHARES

I/We have done off market transaction for crediting the above equity share(s) to the Depository Account of "The Acquirer", whose particulars are given as under:

NAME OF ACCOUNT	DP ID	CLIENT ID	DP NAME	DEPOSITORY
Parveen Gupta	19101	1201910102271538	Smc Global Securities	Central Depository
			Limited - New Delhi	Services (India)
				Limited (CDSL)

I/We note and understand that the shares would lie to the Depository Account of "the Acquirer" until they make payment of the purchase consideration within 15 days from the date of receipt of all duly completed documents/forms (or such longer period as may be required to obtain the relevant regulatory approvals, If any).

PART C - GENERAL:

I/We confirm that the equity shares of Hind Securities and Credits Limited, which are being tendered herewith by me/us under the offer are free from liens, charges and encumbrances of any kind whatsoever.

My/Our execution of this Form of Acceptance shall constitute my/our warranty that the equity shares comprised in this application are owned by me/us and are transferred by me/us free from all liens, charges, claims of third parties and encumbrances. If any claim is made by any third party in respect of the said equity shares, I/we will hold the Acquirer, harmless and indemnified against any loss they or either of them may suffer in the event of the Acquirer acquiring these equity shares.

I/We agree that the Acquirer may pay the exit price only after due verification of the document(s) and signature(s) and on obtaining the necessary approvals if any.

I/We also note and understand that the shares/Original Share Certificate(s) and Transfer Deed(s) will be held by the Acquirer in trust for me/us till the date, the Acquirer makes payment of consideration or the date by which Shares/Original Share Certificate(s), Transfer Deed(s) and other documents are dispatched to the shareholders, as the case may be.

I/We note and understand that the shares would held in trust by the Acquirer until the time the Acquirer makes payment of purchase consideration.

I/We undertake to execute such further document(s) if any and give such further assurance(s) as may be required or expedient to give effect to my / our agreeing to sell the said equity shares.

I/We irrevocably authorize the Acquirer to send by Registered Post at my/our risk, the Cheque (s)/ Demand Draft(s)/Pay Order(s) in settlement of consideration payable, to the Sole/First holder at the address given hereunder and if full address is not given below the same will be forwarded at the address registered with Hind Securities and Credits Limited:

Name and complete address of the Sole/First holder (in case of member(s), address as registered with HIND SECURITIES AND CREDITS LIMITED):						
Place:	Date:	Tel./Mobile No(s).:	Fax No.:			

So as to avoid fraudulent account of the first/sole sha RTGS/NEFT/Direct Credit an	areholder and the consi	ideration will be p		
Bank Account No.:				
Type of Account:	(Saving /Curi	_ (Saving /Current /other (please specify)		
Name of the Bank:				
Name of the Branch and Add	ress:			
IFCS Code of Bank:				
Note: Shareholders are rementioned in the table give Credit. The Permanent Account No.	n above in order to rec	eive sale consider	ation throug	gh NEFT/RTGS/Direct
	1 st Shareholder	2 nd Sharehold	ler	3 rd Shareholder
PAN / GIR No.	1 Shareholder	2 Sharehok		3 Shareholder
Yours faithfully,	'	'		
Signed and Delivered:	FULL NAME (S) OF	THE HOLDERS	SI	GNATURE (S)
First/Sole Shareholder	1 022 10 1012 (0) 01	THE HOLDERS	5.	OINT ONE (S)
Joint Holder 1				
Joint Holder 2				

<u>Note:</u> In case of joint holdings all the holders must sign. In case of body corporate, stamp of the Company should be affixed and necessary Board Resolution should be attached.

CHECKLIST

FOR DEMAT SHAREHOLDERS	FOR PHYSICAL SHAREHOLDERS			
1. Duly Filled and Signed Form of Acceptance	1. Duly Filled and Signed Form of Acceptance			
2. Copy of Acknowledged Demat Slip	2. Original Physical Share Certificate of the			
	Company			
3. Other document, as applicable	3. Duly filled and signed Transfer Deed			
	4. Other documents, as applicable			
4. Self-Attested copy of PAN Number	5. Self-Attested copy of PAN Number			
(Permanent Account Number)	(Permanent Account Number)			

	4. Other documents, as applicable
4. Self-Attested copy of PAN Number	5. Self-Attested copy of PAN Number
(Permanent Account Number)	(Permanent Account Number)
Te	ear along this line
Acknow	vledgement Slip
Received from Mr./Ms./M/swith the following documents:-	Form of Acceptance along-
A) For shares held in Physical Form:	
1. Original Share Certificate(s) alongwith du	uly signed transfer deed(s)
2(Specify)	
3(Specify)	
B) For shares held in Dematerialized Form:	
1. Counterfoils photocopy of the delivery Ir	nstruction duly acknowledged by Depository Participant.
2(Specify)	
3(Specify)	
Signature of Official:	Date:

Please send all your correspondences to the Acquirer and send the correspondences at below mentioned address of the company.

Address: D-16, Ground Floor, Udyog Nagar, Nangloi, Delhi-110041

Contact No. +91-9899425575

E-mail: supersecurities1993@gmail.com